



@Qpatrika

@qaumipatrika
hindiinstagram.com/
qaumipatrika

दिल्ली-हरियाणा-पंजाब-चण्डीगढ़-उत्तर प्रदेश से प्रसारित

बुधवार, 14 अगस्त 2024

कौमी पत्रिका

राष्ट्रीय दैनिक अखबार

R.N.I. No. UP-HIN/2007/21472 सम्पादक - गुरचरन सिंह बख्तर वर्ष 17 अंक 279 qaumipatrikahindi 011-41509689, 23315814, 9312262300 गाजियाबाद संवत् 2077-78, पेज (12) मूल्य 3.00 रुपये (हवाई शुल्क 50 पैसे अतिरिक्त)

VISIT:
www.qaumipatrika.in
Email: qpatrika@gmail.com

चुनाव की घोषणा कभी भी, चुनाव आयोग ने लिया तैयारियों का जायजा

चंडीगढ़, 13 अगस्त। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान जल्द हो सकता है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग को तीन नवंबर से पहले नई सरकार का गठन करना है। ऐसे में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह चुनाव हो सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 2.01 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.06 करोड़ पुरुष और 95 लाख महिला वोटर हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय हरियाणा के दौर पर आया था। मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग ने बैठक में हरियाणा में जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को पूरी निष्पक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि प्रलोभन मुक्त मतदान प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध शराब, रूपायों का लेन-देन और ड्रग्स को रोकने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग की टीम में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू भी शामिल हैं। वे सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे। चुनाव तैयारियों की समीक्षा के दौरान चुनाव आयोग की टीम ने आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा, सीपीआई (एम), कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) जैसे राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। चुनाव आयोग की टीम ने बताया कि राजनीतिक दलों ने उनके समक्ष कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती, मतदान केंद्रों के बीच की दूरी कम करने और बुजुर्गों व महिलाओं के लिए सुविधाओं में सुधार करने का अनुरोध किया गया है।

युवाओं को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए: अमित शाह

अहमदाबाद, 13 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में भाजपा की 'तिरंगा यात्रा' को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आकर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। वे यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 'तिरंगा यात्रा' युवाओं में ऊर्जा भरने और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्हें प्रतिबद्ध करने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दो साल पहले शुरू किया गया 'हर घर तिरंगा' अभियान सिर्फ देशभक्ति की अभिव्यक्ति ही नहीं बना है, बल्कि यह 2047 तक भारत को एक महान और विकसित राष्ट्र बनाने की हमारी प्रतिज्ञा का प्रतीक भी बन गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है, तो नागरिकों और खासकर युवाओं को आगे आकर देश को अग्रेसर बनाने के उद्देश्य से काम करने की जरूरत है। उन्हें हर उस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, जिसमें वे पारंगत हैं। अहमदाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाने के बाद राष्ट्रीय ध्वज धामकर शाह ने कुछ दूरी तक पैदल चलकर यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' अभियान का तीसरा संस्करण मनाया जा रहा है। इस पहले के पीछे का उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाना और तिरंगे के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई से कराने का आदेश: कलकत्ता हाईकोर्ट

सिमी कौर बख्तर

कोलकाता, 13 अगस्त। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षों को दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी। इससे पहले कई जनहित याचिकाओं के दायर होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया था। अदालत ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए किसी के पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी किसी और सरकारी कॉलेज में नियुक्ति कैसे की जा सकती है। साथ ही उन्होंने आज दोपहर तीन बजे से पहले संदीप घोष को छुट्टी का आवेदन जमा करने को कहा था। इसके साथ ही आज दोपहर एक बजे अदालत में मामले की केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया था। पीठ के निर्देश पर पश्चिम बंगाल सरकार ने दोपहर एक बजे केस डायरी पेश की। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई दोपहर तीन बजे तक के लिए स्थगित

कर दी। बता दें, आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद से प्रोफेसर (डॉ.) संदीप घोष ने कल इस्तीफा दे दिया था। उसके कुछ ही समय बाद ही उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड

तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान दर्ज किया गया था, इस पर राज्य के वकील ने ना में जवाब दिया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अगर प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था तो उन्हें किसी अन्य सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल पद से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही अदालत ने आज दोपहर तीन बजे तक छुट्टी का आवेदन जमा करने का आदेश दिया। साथ कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि यहां सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों नहीं शुरू किया गया। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने बताया कि अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, हत्या की तत्काल कोई शिकायत नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव सड़क किनारे नहीं मिला और अस्पताल के अधीक्षक या प्रिंसिपल शिकायत दर्ज कर सकते थे। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हत्या इतनी भयावह थी कि डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं द्वारा अपनी पीड़ा जाहिर करना सही था। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य का आंदोलनकारी डॉक्टरों के साथ बातचीत करनी चाहिए। इस बीच, राज्य सरकार के वकील ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस मामले में पारदर्शी जांच कर रही है।



हॉस्पिटल में नियुक्त कर दिया गया था। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवांगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि जांच में कुछ गायब हैं और पूछा कि क्या मेडिकल कॉलेज के

ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस, अल्पसंख्यक छात्रों से की मुलाकात

सौरभ शर्मा

ढाका, 13 अगस्त। बांग्लादेश के आंदोलनकारी हिन्दू और अल्पसंख्यक छात्रों ने मंगलवार को अंतरिम प्रशासक मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। यह मुलाकात ढाकेश्वरी मंदिर में हुई। इस दौरान उन आठ सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई, जिसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया था। यूनुस ने उनकी मांगों पर गौर करने और अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने के लिए जरूरी उपायों का भरोसा दिया है। यूनुस ऐसे समय मंदिर पहुंचे हैं, जब बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूनुस ने ढाकेश्वरी मंदिर में कहा कि देश को संकट से बाहर निकालना होगा। हमें एकजुट होना होगा। इस समय बंटने का नहीं, बल्कि साथ रहने का है। सभी को धैर्य और संयम का पालन करना होगा। हम ऐसा बांग्लादेश बना चाहते हैं, जो एक परिवार जैसे रहे। जिसमें हिंसा न हो। हमें यहां शांति सुनिश्चित करनी होगी। मुलक में हिंसा के बीच आठ अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने वाले यूनुस ने यह भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित किए

जाने चाहिए। उन्होंने अपने देश की दुर्दशा के लिए संस्थागत पतन को जिम्मेदार ठहराया। ढाका के प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर में यह बैठक अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर हमलों, उनके व्यवसाय और



संपत्तियों की बर्बादी और 5 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद कई दिनों तक चली हिंसा में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के बाद हो रही है। ढाकेश्वरी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यूनुस के हवाले से एक स्थानीय

अखबार ने बताया कि सभी के अधिकार समान हैं। हम सब एक जैसे ही हैं और हमारे एक ही अधिकार हैं। हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। कृपया हमारी सहायता करें। धैर्य रखें और बाद में निर्णय लें कि हम क्या कर पाए और क्या नहीं। अगर हम असफल होते हैं, तो हमारी आलोचना करें। इससे पहले हजारों अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सदस्यों ने शुक्रवार और शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी और उत्तर-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। वे हिंसा के बीच सुरक्षा की मांग कर रहे थे। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वालों के मुकदमों में तेजी लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण, अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत संसदीय सीटों का आवंटन और अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर हिंदू प्रदर्शनकारियों की रैली ने शनिवार को ढाका के मध्य भाग में शाहबाद में तीन घंटे से अधिक समय तक यातायात को रोक कर रखा था। शनिवार को ही यूनुस ने हिंसा प्रभावित राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की निंदा की थी।

यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच सौरभ भारद्वाज ने तैयारियों का लिया जायजा कौमी संवाददाता


दिल्ली, 13 अगस्त। दिल्ली में यमुना उफान पर है। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है, जबकि यहां चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विभाग की तैयारियों को परखने के लिए मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निरीक्षण के दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा के हथिनी कुंड बेराज से करीब 10,000 से 13,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है, जबकि यहां चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर



है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्व और सिंचाई विभाग की तैयारियों का जायजा लेने आया था। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए इसमें कोई भी तैरने आदि का प्रयास न करें। हरियाणा के हथिनी कुंड बेराज से करीब 10,000 से 13,000 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है। दिल्ली के पुराने रेलवे ब्रिज पर पानी का स्तर 204.35 मीटर है, यहां चेतावनी का स्तर 204.5 मीटर है।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू को फोन पर धमकी

शिमला, 13 अगस्त। मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुखू को देहरा के शहीद भुवनेश डोगरा ग्राउंड में 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहराने से रोकने के लिए अलगाववादी संगठन ने धमकी दी है। संगठन के प्रमुख सूरतवंत फक्र की ओर से लोगों के मोबाइल पर धमकी वाले फोन आ रहे हैं। उपायुक्त कांगड़ा और एसडीएम को भी धमकी भरी कॉल आई हैं। इससे पहले भी यह संगठन कई बार धमकियां दे चुका है। बता दें कि धर्मशाला विधानसभा गेट पर भी अलगाववादी संगठन पहले विवादित झंडे लगा चुका है, जिसमें पुलिस ने आतंरिकियों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश सरकार ने पुलिस को आदेश दे रखा है। सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टा इंतजाम किए जा रहे हैं। चपे-चपे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।



भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव-बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नेजिन्दर कौर बख्तर

नई दिल्ली, 13 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को बंद कर दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें कांविड टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के खिलाफ पतंजलि पर बंदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर 2023 के अपने आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने आवधानन दिया है कि "इसके बाद किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होगा, खासतौर

से इसके द्वारा निर्मित उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग के संबंध में ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा औषधीय प्रभावों का दावा करने वाले या किसी भी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह दुष्प्रभावित, बाधक और कम सुनने वाले लोगों के लिए दूरदर्शन पर रोजाना विशेष समाचार बुलेटिन चलाए। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिडिस्टर जनरल (एसएसजी) ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रसारण भारतीय से निर्देश मांगें। दूरदर्शन ने 15 अक्टूबर, 1987 को श्रीवर्ग बाधितों के लिए अपना पहला सप्ताहिक बुलेटिन शुरू किया था। शीर्ष अदालत ने एसजी से मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया देने को कहा और मामले की सुनवाई 28 अगस्त के लिए तय की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार से एक निजी पक्ष के लिए उचित मुआवजे की राशि तय करने को कहा, जिसकी संपत्ति पर छह दशक से भी ज्यादा समय पहले राज्य ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था।

चिकित्सा प्रणाली के खिलाफ कोई भी आकस्मिक बयान किसी भी रूप में मीडिया को जारी नहीं किया जाएगा।" सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद इस आवधानन के प्रति बाध्य है।



गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात हुआ: खरगे

नरेश मल्होत्रा

नई दिल्ली, 13 अगस्त। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों की तैयारियों के बीच, आज कांग्रेस की एक बैठक हुई। इस दौरान तमाम मुद्दों पर बात हुई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, 'सेबी और अदाणी के बीच सांठगांठ के चौंकाने वाले खुलासे की गहन जांच की जरूरत है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों का पैसा खतरे में नहीं डाला जा सकता। मोदी सरकार को तुरंत सेबी अध्यक्ष का इस्तीफा मांगना चाहिए और इस संबंध में जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) का गठन करना चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रमुख माधवी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की पुष्टि भी यह बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि बेलगाम बेरोजगारी और अनियंत्रित मुद्रास्फीति तथा परेल्ड बचत में कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर पार्टी ने ध्यान केंद्रित

किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात किया है।



खरगे ने आरोप लगाया कि संविधान पर हमला लगातार जारी है। उन्होंने साथ ही कहा कि जातीय जगहना लोगों की मांग है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारे किसानों के लिए एमएसपी की

कानूनी गारंटी की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगी। हमारे देशभक्त युवाओं पर धोपी गई



विधानसभा में विपक्षी विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। हम मणिपुर के लिए सरकार से ठोस रोडमैप की मांग करते हैं।

रशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये (प्रति माह) करने की कोशिश करूंगा। मैं आपका भाई हूँ, लेकिन अगर आपने अभी अपना आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैं आपके बैंक खातों से 1,500 रुपये वापस ले लूंगा। इस पर राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने पूछा कि इस योजना के तहत वितरित की गई राशि राणा की है? या फिर यह राशि मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्रियों की है? अब यह साबित हो गया है कि इस योजना की घोषणा चुनावों को ध्यान में रखकर की गई थी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर महिलाओं को इस तरह से धमकाया जाता है तो ऐसा करें और फिर देखें कि क्या करती हैं। इसका जवाब देते हुए राणा ने कहा कि मैंने जो कहा वह मजाक था। जब मैंने यह कहा तो महिलाएं हंस पड़ीं।

कर्नाटक के वन मंत्री पर केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी का हमला

बंगलूरु, 13 अगस्त। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड से 281 एकड़ जमीन वापस लेने के लिए निर्देश जारी करने पर कर्नाटक वन मंत्री ईश्वर खंडे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस उपक्रम ने 90 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ लंबे समय तक घड़ी बाजार पर राज किया, उससे वह वन भूमि के नाम पर जमीन वापस क्यों लेना चाहते हैं? जबकि वह बंद होने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी संकीर्ण विचारधारा को त्यागें और बंगलूरु के गौरव को दोबारा जीवन देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें। दरअसल कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंडे ने नौ अगस्त को वन विभाग को निर्देश दिए थे कि बंगलूरु के पीन्या-जलाहल्ली में सर्वेक्षण संख्या 1 में 599 एकड़ भूमि वन भूमि थी। इस भूमि पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड स्थापित है। उन्होंने कहा कि यह भूमि एचएमटी को उपहार में दी गई थी, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस भूमि में से खाली पड़ी 281 एकड़ भूमि को एचएमटी से वापस ले लिया जाए। खंडे के निर्देश कुमारस्वामी के एचएमटी लिमिटेड का दौरा करने और अधिकारियों के साथ बैठक करने के कुछ दिन बाद जारी हुए। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने वन मंत्री से सवाल किया कि क्या सार्वजनिक उपक्रम की दायनीय स्थिति उनकी आंखों में आसू नहीं लाती? क्या आपको कर्नाटक पर गर्व नहीं है? ऐसे संश्यों को बंद करने के लिए ही क्या वे सत्ता में आए हैं? इस संकीर्ण विचारधारा को छोड़ें और कर्नाटक के विकास के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि एचएमटी को 1958-59 और 1968-70 में भूमि अधिग्रहण के बाद स्थापित किया गया था। इस संयंत्र का पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने भी दौरा किया था। 1970 में एचएमटी ने 270 करोड़ रुपये लाभ भी कमाया और हैदराबाद, उत्तराखंड, अजमेर और केरल में अपनी इकाइयां स्थापित कीं। इसके बाद टाटा अपने टाइटन ब्रांड के साथ आगे और एचएमटी से 350 इंजीनियरों को अपनी इकाई में ले गए। इससे केंद्रीय पीएसयू का पतन हो गया। कुमारस्वामी ने भूमि में से खाली पड़ी 281 एकड़ भूमि को कौन कौन से तरीके से वापस ले लिया है? खंडे के

सर्बिया को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रण की उम्मीद

एजेंसी बेलग्राड। दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश सर्बिया को आगामी दिनों में रूस के कजान शहर में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आधिकारिक निमंत्रण मिलने की उम्मीद है। सर्बिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुलिच ने समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के साथ एक साक्षात्कार में कहा, इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिये हम आगामी दिनों में औपचारिक निमंत्रण की उम्मीद करते हैं, मैं ब्रिक्स के कार्यक्रमों में शामिल होना चाहता हूँ। गौरतलब है कि 2024 में, रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता की योजना में रूस के 11 क्षेत्रों में 250 से अधिक कार्यक्रम शामिल हैं। यह कार्यक्रम को संयोज्य और क्षेत्रीय कार्यकारी अधिकारियों, सार्वजनिक संगठनों तथा व्यापारिक समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित किये जाएंगे। चौदहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अक्टूबर को कजान में आयोजित किया जाएगा।



पाकिस्तान के पंजाब में बस-कार की टक्कर से छह लोगों की मौत

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के भक्कर जिले में कार और बस के बीच टक्कर से कम से कम छह लोगों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गया। बचाव सेवा सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना जिले के मनकरा इलाके में झांग रोड पर शाम को उस समय हुई, जब विपरीत दिशा से आ रहे दो वाहन क्रॉसिंग से गुजरते समय आपस में टकरा गये। घटना में कार में सवार छह लोगों की मौत हो गयी। बचावकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों को स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में तीन बच्चे शामिल हैं, जबकि एक महिला घायल हुई है।

बंगलादेश पुलिस ने बहाली की मांग की

ढाका। बंगलादेश में कोटा विरोध प्रदर्शन के बाद बर्खास्त किए गए कई पुलिसकर्मी ढाका में सचिवालय के सामने एकत्र हुए और बहाली की मांग की। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व पुलिस कर्मियों के परिार में प्रवेश करते ही सचिवालय के दरवाजे बंद कर दिए गए। प्रदर्शनकारी पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद और अन्य अधिकारियों की आलोचना करते हुए नारे लगा रहे थे। सचिवालय सुरक्षा उपायुक्त ने बताया कि प्रदर्शनकारी पुलिस अधिकारी भी सचिवालय आये थे।

पाकिस्तान में पूर्व आईएसआई प्रमुख ले. जनरल फैज हमीद का होगा कोर्ट मार्शल, हिरासत में लिए गए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने पूर्व आईएसआई प्रमुख ले. जनरल (रि) फैज हमीद को सैन्य हिरासत में ले लिया है। सेना की जांच में जनरल हमीद को टॉप सिटी मामले में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है और उनके खिलाफ अब कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू होगी। पाकिस्तान सेना की तर्फ से जारी बयान के मुताबिक, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (सेवानिवृत्त) के खिलाफ टॉप सिटी केस में की गई शिकायतों की सत्यता जांचने के लिए बनाई गई पाक सेना की पड़ताल ने उन्हें दोषी पाया है। लिहाज लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद (रि) के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इतना ही नहीं जनरल हमीद के खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद पाकिस्तान सेना अधिनियम के उल्लंघन के भी कई मामले सामने आए। इन सबके महानजर अब पाकिस्तान के पूर्व डीजी आईएसआई के खिलाफ फौज जनरल कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही ले. जनरल फैज हमीद को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है। हमीद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीब थी। यहां तक कि अप्रैल 2022 में इमरान खान के प्रधानमंत्री रहते हुए उनका नाम पाक सेना प्रमुख के तौर पर भी चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति कब क्या करवट ले यह कहना कठिन है। जनरल बाजवा और फिर जनरल आसिम मुनीर से बड़ी दूरियों ने जनरल फैज हमीद को कठपुतरी में खड़ा कर दिया है।

चीन में निर्माणधीन स्थल पर हुई दुर्घटना में पांच लोगों की मौत

झेंगझोउ। मध्य चीन हेनान प्रांत में एक निर्माणधीन स्थल पर हुई दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गयी है। चांगगुआन शहर के आपातकालीन प्रबंधन ब्यूरो ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना हेनान में सुबह 08 बजकर 51 मिनट पर हुई। यह दुर्घटना दक्षिण से उत्तर जल मुड़व परियोजना के चांगगुआन हिस्से में हुई। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।



ऑस्ट्रेलिया में होटल की छत से टकराने से हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट की मौत

एजेंसी सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सुदूर उत्तरी क्विंसलैंड में सुबह हेलीकॉप्टर एक होटल की छत से टकराने से क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में एक पायलट की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। सिडनी मॉनिंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक पायलट की उम्र 40 साल बताई जा रही है। वहीं 83 वर्षीय पुरुष और 76 वर्षीय महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलियाई एबीसी न्यूज प्रसारक के अनुसार, पुलिस ने केमस एस्प्लेनेड पर डबल ट्रो बाय हिल्टन के आसपास आपातकाल की घोषणा की है। वहीं दुर्घटना के बाद लगभग 400 लोगों को निकाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दुर्घटना स्थल के पास एक



होटल के कमरे में ठहरे 80 वर्षीय एक व्यक्ति और 70 वर्षीय एक महिला को धुएं के कारण सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें इलाज के लिए केमस अस्पताल पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, क्रनलैंड स्टेट पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। वहां मौजूद लोगो को कोई चोट नहीं आई। इस घटना की जांच की जा रही है। दुर्घटना का एक वीडियो भी

रूस का दावा, यूक्रेन के ड्रोन के कारण लगी जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग

एजेंसी मास्को। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के जापोरिज्जिया परमाणु संयंत्र पर उसने खुद गोले दागे जिससे एक कूलिंग टावर के पास आग लग गई। रूसी विदेश मंत्रालय ने वियेना में उसके मिशन कार्यालय से जारी एक बयान में कहा, 'बीती रात एक यूक्रेनी ड्रोन के हमले में जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र (जेडएनपीपी) के कूलिंग सिस्टम के पास आग लग गई। रूस इस बात पर जोर देगा कि आईईए (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) जेडएनपीपी के इलाके में हुए इस हमले के दायित्व को नामित करेगा। इस तथ्य पर और खामोश रहना कीव की धृष्टता को मौन स्वीकृति देना होगा। आईईए को कहा कि जेडएनपीपी में उसके विशेषज्ञों ने शाम भर तक

विस्फोटों की आवाज सुनी और प्लांट के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र से घना जाला है और उनके क्षतिग्रस्त होने से शटडाउन पड़ी छह इकाइयों की सुरक्षा



काला धुआं निकलता देखा। जेडएनपीपी के दो कूलिंग टावर जेडएनपीपी की परिधि के बाहर कूलिंग पॉन्ड के उत्तरी किनारे पर स्थित हैं। एजेंसी ने बताया कि कूलिंग टावर का उपयोग प्लांट के बिजली संचालन के दौरान किया जाता है और उनके क्षतिग्रस्त होने से शटडाउन पड़ी छह इकाइयों की सुरक्षा

मोहम्मद यूनुस मंगलवार को अल्पसंख्यक नेताओं के साथ करेंगे बैठक


एजेंसी ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ढाका में देश के अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के 5 अगस्त को इस्तीफे के बाद से देश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों और बर्बरता की घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह बैठक होने जा रही है। बांग्लादेशी इस्लामी विद्वान अबुल फैयाज मोहम्मद खालिद हुसैन वर्तमान में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में धार्मिक मामलों के सलाहकार हैं। उन्होंने ढाका में पत्रकारों को बताया,



उन्होंने वादा किया कि उपद्रवियों को सजा दिलाई जाएगी। हुसैन ने यह भी बताया कि नष्ट हुए घरों और मंदिरों की सूची तैयार की जा रही है। पीड़ितों को हमारे धर्म का भी हिस्सा है कि हमें अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि देश अराजकता की दौर से गुजर रहा है। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं बड़े पैमाने पर समाज से आग्रह करता हूँ कि उनकी रक्षा करें।

ईरान और यूरोपीय परिषद ने परमाणु वार्ता की बहाली पर चर्चा की

दोनों पक्ष अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं और आपसी विश्वास बनाने में मदद करते हैं, तो परमाणु



एजेंसी तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने पर वार्ता को फिर से शुरू करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया है। समाचार एजेंसी ने ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित एक बयान का हवाला देते हुए बताया कि एक फोन कॉल में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ दुनिया में बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने और गाजा में विकास सहित साझा हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ईरान और समझौते के अन्य पक्षों के बीच परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने पर पेजेशकियन ने कहा कि विश्वास का अस्तित्व और द्विपक्षीय हितों की रक्षा एक समझौते का आधार है। उन्होंने कहा कि अगर हत्याओं ने एक नागरिक के तौर पर मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। राजनीतिक दलों को राजनीतिक के भविष्य की खातिर हिंसा से बचने के लिए एक समझौता करना चाहिए।

बंगलादेश सरकार ने जन्माष्टमी के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा का किया वादा

एजेंसी ढाका। बांग्लादेश से करीब एक हफ्ते से अल्पसंख्यक विरोधी हिंसा की खबरें आ रही हैं। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया गया है। मोहम्मद यूनुस की नई अंतरिम सरकार ने दूसरे ही दिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने आने वाले हिंदु त्योहारों को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सखावत हुसैन ने कहा,




हमारे धर्म का भी हिस्सा है कि हमें अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि देश अराजकता की दौर से गुजर रहा है। पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं बड़े पैमाने पर समाज से आग्रह करता हूँ कि उनकी रक्षा करें।

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी का ईरान से मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ाने से बचने का आह्वान

लंदन। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से आगे ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया है, जिससे मध्य पूर्व में स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि 'हम ईरान और उसके सहयोगियों से ऐसे हमलों से बचने का आह्वान करते हैं, जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएंगे और युद्धविराम तथा बंधकों की रिहाई पर सहमति बनाने के अवसर को खतरे में डालेंगे। वे उन कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होंगे, जो शांति और स्थिरता के इस अवसर को खतरे में डालती हैं। मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ाने से किसी भी देश या राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा। बयान के मुताबिक इन देशों के नेताओं ने कहा कि वे क्षेत्र में तनावपूर्ण घटनाक्रमों से चिंतित हैं और तनाव कम करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता में एकजुट हैं। बयान में कहा गया, 'हम, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेता, युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर समझौते की दिशा में कतर, मित्र और अमेरिका में हमारे भागीदारों के अथक काम का स्वागत करते हैं। इस बीच फिलिस्तीनी आंदोलन हमसब से 15 अगस्त को गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर इजरायल के

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी का ईरान से मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ाने से बचने का आह्वान

लंदन। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से आगे ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया है, जिससे मध्य पूर्व में स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिटेन सरकार द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि 'हम ईरान और उसके सहयोगियों से ऐसे हमलों से बचने का आह्वान करते हैं, जो क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ाएंगे और युद्धविराम तथा बंधकों की रिहाई पर सहमति बनाने के अवसर को खतरे में डालेंगे। वे उन कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होंगे, जो शांति और स्थिरता के इस अवसर को खतरे में डालती हैं। मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ाने से किसी भी देश या राष्ट्र को कोई लाभ नहीं होगा। बयान के मुताबिक इन देशों के नेताओं ने कहा कि वे क्षेत्र में तनावपूर्ण घटनाक्रमों से चिंतित हैं और तनाव कम करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता में एकजुट हैं। बयान में कहा गया, 'हम, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेता, युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर समझौते की दिशा में कतर, मित्र और अमेरिका में हमारे भागीदारों के अथक काम का स्वागत करते हैं। इस बीच फिलिस्तीनी आंदोलन हमसब से 15 अगस्त को गाजा पट्टी में युद्ध विराम पर इजरायल के



साथ वार्ता के अंतिम दौर में भाग लेने के लिए अमेरिका, कतर और मित्र के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। पिछले हफ्ते मित्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह सिसी ने घोषणा की कि मित्र, कतर और अमेरिका ने एक बयान जारी कर इजरायल और हमसब से 14-15 अगस्त को युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। तीनों देशों के नेताओं ने युद्ध विराम को सुरक्षित करने के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने की इच्छा व्यक्त की है।

तुर्की के हवाई हमलों में 17 कुर्द आतंकवादी मारे गये



एजेंसी अंकारा। उत्तरी इराक में सीमा पर अभियान में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (पीकेके) के ठिकानों पर तुर्की बलों के हवाई हमलों में 17 कुर्द आतंकवादी मारे गये। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तरी इराक में ऑपरेशन कर्ला-लोक क्षेत्र में हवाई हमले किए गए। तुर्की सुरक्षा बल अक्सर उत्तरी इराक में सीमा पर अभियान चलाते हैं और पीकेके के ठिकानों और ठिकानों को निशाना बनाते हैं। तुर्की ने अप्रैल 2022 में तुर्की सीमा के पास इराक के मेदिना, जैप और अनासिन-बसयान क्षेत्रों में पीकेके सदस्यों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन कर्ला-लोक शुरू किया था। तुर्की, अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से आतंकवादी संगठन घोषित पीकेके ने तीन दशकों से अधिक समय से तुर्की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है।

एथेंस में कई जगहों पर मीषण आग के चलते मैराथन शहर को खाली करने का निर्देश

पड़ाशहर के दमकल विभाग के कर्मचारी उत्तर-पूर्वी अटिका क्षेत्र में कई किलोमीटर तक फैले आग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।



यह आग स्थानीय समयानुसार दोपहर 3 बजे एथेंस से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर वर्नवास बिल्डिंग में भड़क उठी। गर्म और तेज हवाओं के कारण आग बहुत तेजी से फैल रही है। इसी वजह से उठने वाले धुआं ने एथेंस के एक बड़े हिस्से को ढक लिया है। ग्रीक मीडिया वैज्ञानिकों के अनुसार, तेज हवाओं के कारण

कौमी पत्रिका

संपादक-गुरचरन सिंह बब्बर
स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक,
गुरचरन सिंह बब्बर ने कौमी पत्रिका प्रिंटिंग प्रेस, सेक्टर 4/ए-144 इंडस्ट्रियल एरिया ट्रीका सिटी लोनी (गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश से छापकर प्रकाशित किया।
Corporate Office:
5, Bahadurshah Zafar Marg ITO, New Delhi-110002
फोन : 011-41509689, 23151814
मोबाइल नंबर : 9312262300
E-mail address :
qpatrika@gmail.com
Website: www.quamipatrika.in
R.N.J. No.
UP-HIN/2007/21472
Legal Advocates:
Advocate Mohd. Sajid
Advocate Dr. A.P.Singh
Advocate Manish Sharma
Advocate Pooja Bhaskar Sharma

कौमी पत्रिका

बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति? बांग्लादेश में हिंदु धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। देश में हिंदुओं की आबादी करीब 10 फीसदी है। पिछले हफ्ते शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भीड़ ने अवाामी लोग के नेताओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया था। खबरों के मुताबिक कई शहरों में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हमले हुए हैं। इस हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के हिंदुओं ने भी देश की सड़कों पर प्रदर्शन किए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग की।

हरियाणा में गठबंधन सरकार बनने पर भाजपा-कांग्रेस से लेंगे 20 साल का हिसाब : अमर चौटाला

एजेंसी
हरियाणा। इनलो के प्रधान महासचिव एवं विधायक अमर सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में इनलो-बसपा गठबंधन सरकार बनने पर कांग्रेस व भाजपा से 20 साल का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल कांग्रेस ने और 10 साल भाजपा ने जो किया है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमर सिंह चौटाला बरवाला की कपास मंडी में आयोजित इनलो-बसपा गठबंधन के लोकसभा स्तरीय साक्षात्कार कार्यक्रमों में भी संबोधित कर रहे थे। अमर चौटाला भाजपा व कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 10 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है। चुनाव नजदीक आने पर मुख्यमंत्री सैनी वायदे और घोषणाएं कर रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो इस सरकार के सभी फैसले पलटने का काम करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही पार्टी के दूसरे सीएम ने पहले वाले सीएम के फैसले को पलटने का काम किया है। इससे साबित होता है कि पूर्व सीएम ने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया। अमर चौटाला ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुडा बीजेपी से दस साल का हिसाब मांग रहे हैं। पहले हुडा प्रदेश की जनता को हिसाब दें कि किस प्रकार से उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया है।

राष्ट्रीय ध्वज दिवस व शान-ए-तिरंगा दिवस की घोषणा करें पीएम : शील मधुर

गुरुग्राम। पूर्व पुलिस महानिदेशक व सादर इंडिया मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं तिरंगा मेरी शान अभियान के संयोजक शील मधुर को उम्मीद है कि इस बार 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा कर सकते हैं। पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने बताया कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजकर 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस तथा 30 दिसंबर को शान-ए-तिरंगा दिवस घोषित करने की मांग की है। वह पिछले 4 वर्षों से भी ज्यादा समय से राष्ट्रीय ध्वज दिवस को उसका वास्तविक इकटित्व दिवस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब तक राष्ट्रीय ध्वज दिवस को इसका पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता उनका वह अभियान चलता रहेगा। शील मधुर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा करने का यह आग्रह उनकी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि यह देश के 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक मांग और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है।

तिरंगा यात्राओं ने युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का मर दिया है पूरा जोश : संजय सिंह

चंडीगढ़। हरियाणा के खेल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री संजय सिंह ने कहा कि तिरंगा झंडा हमारे देश की आन-बान व शान है। तिरंगा का पूरा सम्मान करना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने तिरंगा यात्राएं प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित करने का फैसला किया है और इन यात्राओं में युवा पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का पूरा जोश भर दिया है। खेल मंत्री ने गत सायं गुरुग्राम के गांव घामडौज से ग्राम अलीपुर तक निकाली गई तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने गांव के मुख्य शाहीद चौक पर शाहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज हम यहां पर सुख एवं चैन के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि हमारी सेना के जवान सरहदों पर डटकर सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा ही शाहीदों को नमन करना चाहिए, क्योंकि इन शाहीदों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछवर कर दिया है। उन्होंने कहा कि शाहीद युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और युवा पीढ़ी को शाहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा से विशेषकर युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना और अधिक प्रबल होती है।

शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुधा व बीजेपी अध्यक्ष बडौली ने तिरंगा यात्रा रवाना की

कैथल। शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री सुधा व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने 7 जाखोली अड्डे के सरकारी स्कूल से तिरंगा यात्रा को रवाना किया। राज्यमंत्री सुधा सुधा ने कहा कि अमर शाहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी की जंग में देश के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान एक अचूकी पहल है। इस अभियान से आम जन में देशभक्ति का भाव और अधिक प्रबल होता है। तिरंगा हमारे देश की आन-बान और शान है। आज तिरंगा झंडे की धूम विश्व भर में खड़े हुई है। हमारा नैतिक और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है कि तिरंगा झंडे का पूरा सम्मान करें। इस अभियान का उद्देश्य जहां लोगों के अंदर देश भक्ति की भावना का जगना है, वहीं असंख्य अमर शाहीदों को श्रद्धांजलि देना भी है। देश के ऊपर अपने प्राणों को न्योछवर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति पूरा देश कृतज्ञता से अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज हर घर तिरंगा अभियान ने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने भी तिरंगा यात्रा की अग्रवार्द की। तिरंगा यात्रा में नगर परिषद चेयरपर्सन सुप्रिधि गर्ग, बीजेपी जिला अध्यक्ष मुनीष कठवाड़ा, निवर्तमान बीजेपी अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने भी तिरंगा यात्रा में शिरकत की।

नहरी पानी के मुद्दे पर चंदाणा हैड पर धरने पर बैठे किसान

एजेंसी
कैथल। चंदाणा सिरसा ब्रांच नहर के चंदाणा हैड पर नहरी पानी के मुद्दे को लेकर दर्जनों गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर घासीराम में धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे और भाकियू की ओर से धरने को समर्थन देने का ऐलान किया। किसानों का कहना है कि चंदाणा हैड से धमनात डिस्ट्रीब्यूटरी में जो पानी का हफ्ता चलता था। उसको बंद करके सिरसा ब्रांच में पानी छोड़ा जा रहा था। जिसके कारण महीनों से दर्जनों भर कलायत हल्के के गांव और दर्जनों भर नरवाना हल्के के गांवों को नहरी पानी नहीं मिल रहा था। सरकार और नहरी प्रशासन की मिली भगत से इन गांवों का पानी का हक मारकर सिरसा ब्रांच द्वारा आगे भेजा जा रहा था। जिसके कारण किसानों ने तंग आकर अपनी फसल सूखने पर चंदाणा हैड से धमनात डिस्ट्रीब्यूटरी में किसानों ने पानी छोड़ दिया और धरना लगा कर बैठ गए।

विधानसभा चुनाव में जनता करेगी कांग्रेस का हिसाब : मोहन लाल बडौली

एजेंसी
कैथल। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक प्रदेश को लूटने का काम किया। इनका हिसाब आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता करेगी। भाजपा सरकार की निर्यात और निर्याती साफ है। प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में एक समान चहुंमुखी विकास करवाया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी और जिला की चारों सीटों पर कमल छिलेगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कैथल पहुंचने पर जन संघर्ष आशीर्वाद अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कैथल में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रमों द्वारा गमर जोशी से स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि बीजेपी सरकार की नीतियों से प्रत्येक वर्ग में खुशी की लहर है। जहां प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है, वहीं गरीब परिवारों को

नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा : राज्यपाल

देश के टॉप 50 राजकीय विश्वविद्यालयों में से हरियाणा के 4 विश्वविद्यालयों ने पाया स्थान

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भविष्य को सुरक्षित करने वाला निवेश है, जिससे राष्ट्र के हर व्यक्ति के जीवन में उजाला आता है और वह संदेव का कतिपय बनकर चमकता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व



कुलसचिवों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी। नई शिक्षा नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी गतिविधियों एक ही लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की ओर निर्देशित हों। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 का क्षेत्र बहुत विशाल और लचीला है। यह व्यापक होने के साथ-साथ अथाह भी है। नई शिक्षा नीति को लागू कर हम निर्धारित समयावधि में नौजवानों को विश्व स्तरीय गुणवत्ता पूर्वक और रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवा

सके। उन्होंने आज नई शिक्षा नीति को प्रदेश में किस प्रकार जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से लागू किया जाए, विश्वविद्यालयों में नियमित पदों के विरुद्ध भर्ती मेरिट आधार पर पारदर्शी तरीके से पूर्ण करने जैसे कुछ गंभीर विषयों पर भी चर्चा की। इसके साथ ही उन्नत भारत अभियान के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा दो गांवों को गोद लेने के बारे में भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर के अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ अनुबंध करें और विद्यार्थियों को दूसरे देशों में भी जाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें। दूसरे देशों के बच्चों को भी अपने देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आकर्षित करना चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय में मातृभाषा में शिक्षा देने को भी प्रोत्साहित करना भी कारगर कदम

सीएम ने किया प्रदेशवासियों से घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने का आह्वान

मुख्यमंत्री ने कालका से रवाना की तिरंगा यात्रा

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, जान है और इसका सम्मान बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई हर घर तिरंगा मुहिम में भागीदारी करते हुए अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और देश के लिए मर-मिटने वाले रणभक्तों द्वारा देखे गए नए भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दें। नायब सिंह सैनी पंचकुला जिला के कालका में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने भारत माता की जय के

उद्घोषों के साथ तिरंगा यात्रा को रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री स्मरण करने का दिन है, जिन्होंने हमारी भारत मां की रक्षा के लिए



अपने प्राणों की आहुति दी थी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए उन्होंने 'एक पेड़ मां' के नाम अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे जन्मदिन, वर्षगांठ या परिवार में अन्य खुशी के मौकों पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनका संरक्षण भी करें।

जिले में देशभक्ति की लहर, दूसरे दिन शहर में निकाली तिरंगा यात्रा

एजेंसी
झज्जर। देशभक्ति की लहर से ओत-प्रोत हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगातार दूसरे दिन जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा को एडीसी सलोनी शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर एसडीएम रविंद्र यादव व नगर परिषद चेयरपर्सन जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। यात्रा महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम होते हुए पुनः विद्यालय में संपन्न हुई। इस दौरान विद्यार्थियों और आमजन ने तिरंगा धामे, पूरे जोश और गर्व के साथ कदम बढ़ाए, जिससे पूरे मार्ग में देशभक्ति का माहौल गूंज उठा।



एडीसी ने कहा कि उपायुक्त केन्द्र शांति सिंह के दिशा-निर्देशन में तिरंगा यात्रा का आयोजन जिले में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बन रही है जो क्षेत्र के सामाजिक वातावरण में देशभक्ति के

शुद्ध जल, भोजन व हवा बचाने के लिए प्राकृतिक खेती अपनाएं किसान : आचार्य देवव्रत

एजेंसी
जाँड़। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि आज हम उत्पादन बढ़ाने के लिए खेतों में अंधाधुंध खाद व कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे जमीनी की उर्वरा शक्ति कम होने के साथ-साथ कैन्सर, शुगर व हार्ट अटैक जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर हमें भावी पीढ़ियों को शुद्ध जल, भोजन व हवा उपलब्ध करवाने है तो प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत श्री श्याम गार्डन परिसर में आयोजित प्राकृतिक कृषि संवाद कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन करने उपरांत किसानों से संवाद करते हुए दी। जीव पहुंचने पर महामहिम राज्यपाल को पुलिस विभाग

की टुकड़ी द्वारा गाई ऑफ आनर दिया गया। महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा



कि केंद्र सरकार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसी कड़ी में आज हरियाणा के किसानों के बीच आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।

हरियाणा में अन्तोदय परिवारों को 500 रुपये में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर

एजेंसी
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाली तीज के पूर्व पर जीव में हुए सम्मेलन में की गई घोषणा को अमली रूप देते हुए चंडीगढ़ में हर घर- हर गृहिणी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। इस योजना से प्रदेश की बहनों को 1500 करोड़ रुपये सालाना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य है कि गरीब और अंत्योदय के जीवन को सुगम बनाया जाए। इसी कड़ी में पोर्टल के तहत लगभग 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। सिलेंडर पर 500 रुपये अधिक खर्च होने वाली शर्तों हरियाणा सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी का पैसा वापस डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ता घर बैठे ही एक बार ही साइट पर पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। उपभोक्ता वर्ष में 12 सिलेंडर भरवा सकते हैं। गैस सिलेंडर भरवाने पर शेष राशि (500 रुपये से अधिक) प्रत्येक मास उनके खाते में वापस डाली दी जाएगी। इसकी सूचना उपभोक्ता के मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी। इस अवसर पर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुप्रिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी.उमाशंकर, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशीमा बराड़, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मदीप सिंह बराड़ मौजूद रहे।

युवा समाज व

एजेंसी
सिरसा। हमारी आजादी के 77 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और हम आगामी 15 अगस्त को 78वें वर्षगांठ मनाएंगे। यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। गुलामी काल के दौरान मुगलों, अंग्रेजों ने देश को

राष्ट्र निर्माण में लगाएं अपनी ऊर्जा : डा. कमल गुप्ता

मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के

दौरान डा. कमल गुप्ता ने उपस्थितजनों को राष्ट्रीय प्रतिज्ञा भी दिलवाई तथा विद्यालय को दो लाख रुपये देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों ने देश भक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। डा. गुप्ता ने कहा कि

अध्यक्ष शीशापाल, पूर्व चेयरपर्सन रेणु शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप रातुसरिया, अमन चोपड़ा, जिला मॉलिक शिक्षा अधिकारी बुटा सिंह, अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती, एसडीएम राजेंद्र कुमार, डीएसपी सुभाष चंद्र, भाजपा के जिला

फहराने के लिए जागरूक करें। सभी मकानों के साथ-साथ दुकानों, प्रतिष्ठानों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा फहराए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डा. विवेक भारती, एसडीएम राजेंद्र कुमार, डीएसपी सुभाष चंद्र, भाजपा के जिला

बिना किसी रिश्त के पंजाब में 44250 पक्की नौकरी देकर आपके सामने खड़ा हूँ: भगवंत मान

एजेंसी
सिरसा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम आम घरों से निकले हुए लोग हैं। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के गांव सिवानी के गांव में पैदा हुए। उन्होंने अफसरों को लात मारकर जनता की सेवा में उतर आए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से जब आम आदमी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी बनाते हैं जिसमें आम घरों के बेटे बेटियां हों। क्योंकि दूसरी पार्टियों में विधायक, मंत्री ये नेताओं के बेटे, बेटियां और रिश्तेदार ही चल रहे थे। कोई आम आदमी को नहीं पूछ रहा था। आम घरों के बेटे बेटियां को नारे लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भगवंत मान यमिया में बदलाव जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने बहुत नेताओं को जीताया, लेकिन नेता जीत जाते थे और जनता हार जाती थी। उन नेताओं ने अपने घर भरने के अलावा जनता के लिए कुछ नहीं किया। यदि 75 साल का है आजादी के बाद भी जनता का ये हल है तो कहीं न कहीं सिस्टम की

कुरुक्षेत्र में 14 को मुख्यमंत्री आवास घेरेंगी आशा वर्कर्स-सीमा

हरिसार। आशा वर्कर्स यूनियन की जिला प्रधान सीमा ने आरोप लगाया है कि आशा वर्कर्स पर बिना मानदेय ऑनलाइन काम करने का दबाव हरियाणा सरकार लगातर बना रही है। सरकार आश्वासन के बाद भी उनके मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई जबकि काम लगातर बढ़ता जा रहा है। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर 14 अगस्त को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगी। जिला प्रधान सीमा ने कहा कि आशाओं के मानदेय का भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता और न ही किए हुए काम का पूरा पैसा दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर नई-नई ऐप बनाकर आशाओं पर ऑनलाइन काम का दबाव बना रही हैं, जिससे तमाम आशा वर्कर्स में नाराजगी है। जिला प्रधान सीमा ने कहा कि अगर सरकार बातचीत कर आशा वर्कर्स की मांगों का समाधान नहीं करेगी तो 14 अगस्त को पूरा प्रदेश की 20 हजार आशा वर्कर्स मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर प्रशासन को होगी।

कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन-बान और शान का प्रतीक है। शान से लहराते तिरंगे को देखकर हमारा रोम-रोम देशभक्ति की भावना से भर जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिक न केवल अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी तिरंगा

भारत 55 लाख करोड़ यूएसडी की अर्थव्यवस्था बन सकता है, आईएफएमएफ अधिकारी बोले- 72 के नियम से हासिल होगा लक्ष्य

नई दिल्ली। भारत 2047 तक 55 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके लिए केंद्र और राज्यों को जरूरी नीतियां लागू कर वृद्धि दर को 8 फीसदी तक ले जाना होगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने कहा, यह लक्ष्य दुस्साहसी लग सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि की शक्ति के जरिये इसे हासिल करना संभव है। सुब्रमण्यन ने अपनी पुस्तक 'इंडिया एट 100' के अनावरण पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश का निजी कर्ज एवं जीडीपी अनुपात 2020 में 58 फीसदी था। यह उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से करीब छह दशक पीछे है और ये देश अब 200 फीसदी पर है। हालांकि, प्रधानमंत्री जन-धन जैसी योजनाओं के जरिये वित्तीय समावेशन के मामले में अभूतपूर्व काम किया जा रहा है।

72 के नियम से हासिल होगा लक्ष्य

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके सुब्रमण्यन ने कहा, मेरी धारणा '72 के नियम' पर आधारित है। इसके मुताबिक, डॉलर के संदर्भ में 12 फीसदी की वृद्धि दर (आठ फीसदी जीडीपी वृद्धि और पांच फीसदी महंगाई को जोड़ने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये में एक फीसदी का ह्रास) होने पर जीडीपी हर छह साल में दोगुनी हो जाती है।

सोना 200 रुपए उछला, चांदी 1000 रुपये मजबूत हुई

नई दिल्ली। वैश्विक रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपये की तेजी के साथ 72,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया जबकि चांदी की कीमत में 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी आई। पिछले सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना शनिवार को गिरावट के साथ 72,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 1,000 रुपये की तेजी के साथ 83,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इस बीच, सोना 99.5 प्रतिशत शुद्धता की कीमत भी 200 रुपये की तेजी के साथ 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इससे पिछले कारोबारी सत्र में शनिवार को सोना 71,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बाजार सूत्रों ने सोने की कीमतों में तेजी आने का श्रेय स्थानीय आभूषण कारोबारियों की मांग बढ़ने और विदेशी बाजारों में मजबूत रुख को दिया। वैश्विक स्तर पर कॉमेक्स पर सोना 8.40 डॉलर की बढ़त के साथ 2,481.80 डॉलर प्रति औंस पर चल रहा है।

भारती ग्लोबल ने की बड़ी डील, ब्रिटेन की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी में खरीदेगी 24.5 फीसदी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गज सुनील भारती मिलतल का समूह ब्रिटेन की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड और मोबाइल कंपनी बीटी समूह में करीब कर आरब डॉलर में 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी। कंपनी के बयान के अनुसार, भारतीय एंटरप्राइजेज की अंतरराष्ट्रीय निवेश इकाई भारतीय ग्लोबल, प्रौद्योगिकी की अल्ट्राइस से बीटी समूह में 9.99 प्रतिशत हिस्सेदारी तुरंत खरीदेगी और शेष हिस्सेदारी आवश्यक नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद हासिल करेगी। हालांकि, कंपनी ने स्पष्ट के आकार का खुलासा नहीं किया लेकिन बाजार विश्लेषकों का कहना है कि बीटी के करीब 15 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यंकन पर यह सौदा लगभग कर आरब डॉलर के आसपास बैठ सकता है। भारतीय, भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है जिसके करीब 40 करोड़ ग्राहक हैं। इसका बीटी के साथ पहले भी नाता रहा है। बीटी के पास 1997 से 2001 तक भारतीय एयरटेल में 21 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। कंपनी न तो बीटी के संपूर्ण अधिग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव देने को इच्छुक है, न ही वह उसके निदेशक मंडल में कोई स्थान चाहती है। अरबपति झाली द्वारा नियंत्रित निवेश समूह अल्ट्राइस, बीटी से बाहर निकल रहा है क्योंकि यह अधिक कर्ज के संकट जूझ रहा है। इसने सबसे पहले 2021 में बीटी में हिस्सेदारी ली थी। इसके बाद 12 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की जिससे उसकी हिस्सेदारी बढ़कर 24.5 प्रतिशत हो गई।

दैनिक वेतनभोगियों को देने के लिए कारोबारियों के पास पैसे नहीं

ढाका। बांग्लादेश में कारोबारियों को अब हिंसा के बाद नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बैंक के केंद्रीय बैंक ने शेख हसीन के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद फैंली अस्थिरता को देखते हुए बैंकों से नकदी निकालने की सीमा 2 लाख टका तय कर दी है। इससे दैनिक वेतनभोगियों को पैसे देने के लिए कारोबारियों के पास पैसे नहीं बचे हैं। एक मॉडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। बांग्लादेश बैंक ने शनिवार को नकद निकासी की सीमा को पहले घोषित 1 लाख टका से बढ़ाकर प्रति खाता 2 लाख टका (लगभग 1.42 लाख रुपये) कर दी है। केंद्रीय बैंक ने नकद निकासी की सीमा तय करने का फैसला सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए लिया था। बांग्लादेश में नौकरियों में विवादस्पद कोटा प्रणाली को लेकर शेख हसीन की अवामी लीग सरकार के खिलाफ हुए।

क्रॉम्पटन ने नकली उत्पादों पर छापा मारकर कॉलिटी प्रोडक्ट्स की पहुंच उपभोक्ताओं तक रखा बरकरार

नई दिल्ली। क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई ब्रांड ने नकली प्रोडक्ट्स पर लगातार लगे के लिए देशभर में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। इन छापों में कंपनी ने गीजर, एलईडी बल्ब, पंखे और एलपीजी प्रोडक्ट्स सहित बड़ी मात्रा में नकली प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान न केवल नकली सामानों को जब्त किया गया, बल्कि इसके निर्माण में लगी फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया गया। क्रॉम्पटन ने जारी एक बयान में बताया कि कंपनी हमेशा अपने कॉलिटी प्रोडक्ट्स उपभोक्ताओं की पहुंच में लाने को प्राथमिकता दी है। कंपनी को जाली प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से न केवल नकली प्रोडक्ट्स को सप्लाय चेन को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी के

शिकार होने से भी बचाया गया। इसलिए क्रॉम्पटन ने नकली प्रोडक्ट्स के इस खतरे से मुकाबला कर मजबूत संदेश देने का लक्ष्य तय किया है। इससे उपभोक्ताओं के हितों



और प्रामाणिक और असली प्रोडक्ट्स हासिल करने के उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और क्रॉम्पटन और बटरफ्लाई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स की कॉलिटी में यूजर्स का विश्वास बरकरार रहेगा। कंपनी ने बताया कि क्रॉम्पटन ग्रीप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने नकली प्रोडक्ट्स की

बिक्री का मुकाबला करने के लिए की गई इस छापेमारी में आईपी इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्टिव्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीप्स प्रोटेक्शन मैनेजमेंट (पी) लिमिटेड

किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में छापेमारी में नकली बटरफ्लाई गैस स्टोव प्रोडक्ट्स (बटरफ्लाई गैस स्टोव और बटरफ्लाई राइडो स्टोव) और एलपीजी गैज पाइप जब्त किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि क्रॉम्पटन ग्रीप्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भारत में 85 से ज्यादा वर्षों की बंड की विरासत के साथ फैंस और घरों में इस्तेमाल करने वाले पंप के क्षेत्र में मार्केट का लीडर है। इन सालों में कंपनी ने कई नए-नए प्रोडक्ट्स की रेंज लॉन्च की है, जो नए जमाने के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करती है। इन प्रोडक्ट्स में पंखे, पंप, लाइटिंग सोल्यूशंस के साथ अन्य श्रेणियों की विविध रेंज के प्रोडक्ट्स जैसे वाटर हीटर, एयर कूलर और किचन में इस्तेमाल होने वाले छोटे घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर ग्राइंडर, एयर फ्राइस, ओटीजी, इलेक्ट्रिक केतली समेत अन्य उपकरण शामिल हैं।

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22 फीसदी बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपये पर

एजेंसी नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। बेहतर टैक्स कलेक्शन से सरकार का खजाना भर गया है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 11 अगस्त, 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.48 फीसदी बढ़कर करीब 6.93 लाख करोड़ रुपये हो गया है। ये जानकारी आयकर विभाग ने दी है।

आयकर विभाग ने एक्स पोस्ट पर जारी आंकड़ों में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 11 अगस्त 2024 तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22.48 फीसदी की उछाल के साथ 6,92,987 करोड़ रुपये रहा है। विभाग के मुताबिक इस संग्रह में 4.47 लाख करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर संग्रह और 2.22 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट कर संग्रह शामिल है। वहीं, प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) से 21,599 करोड़ रुपये एकत्र हुए, जबकि अन्य

करों (जिसमें समानीकरण शुल्क और उपहार कर शामिल हैं) से 1,617 करोड़ रुपये की कमाई हुई।



विभाग ने कहा कि इस साल एक अप्रैल से 11 अगस्त, 2024 के बीच 1.20 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो 33.49 फीसदी की वृद्धि है। इस तरह सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 24 फीसदी बढ़कर

8.13 लाख करोड़ रुपये रहा। इस कर संग्रह में 4.82 लाख करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी)

और 3.08 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पोरेट कर शामिल है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष करों से 22.07 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया हुआ है।

खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 59 महीने के निचले स्तर 3.54 फीसदी पर आई

एजेंसी नई दिल्ली। उपभोक्ता मूल्य संचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर जुलाई में सालाना आधार पर लुढ़कर 3.54 फीसदी पर आ गई है। यह 59 महीने का निचला स्तर है। अगस्त 2019 में खुदरा महंगाई दर 3.21 फीसदी थी। इससे पिछले महीने जून में खुदरा महंगाई दर 5.08 फीसदी पर थी। मई में यह दर 4.75 फीसदी और अप्रैल में 4.85 फीसदी रही थी।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि खाने-पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई महीने में खुदरा महंगाई दर घटी है।

मंत्रालय के मुताबिक खाने-पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई

घटी है। खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के 2-4 फीसदी के टारगेट के करीब



है। हालांकि, सब्जियों की कीमतों में जुलाई में सालाना आधार पर 6.83

फीसदी की वृद्धि देखी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने जून में यह

(सीपीआई) बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है, जुलाई में घटकर 5.42 फीसदी पर आ गई है, जबकि जून में यह दर 9.36 फीसदी और जुलाई 2023 में 11.51 फीसदी थी। शहरी महंगाई भी महीने-दर-महीने आधार पर 4.39 फीसदी से घटकर 2.98 फीसदी पर आ गई थी। इसके साथ ही ग्रामीण महंगाई 5.66 फीसदी से घटकर 4.10 फीसदी पर पहुंच गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले हफ्ते मॉडिक नीति समिति (एपीसी) की बैठक के बाद चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई दर 4.4 फीसदी रहने का अनुमान जताया था।

कच्चा तेल 82 डॉलर प्रति बैरल के करीब, पेट्रोल-डीजल की कीमत स्थिर

एजेंसी नई दिल्ली। दुनियाभर में आज कच्चे तेल की कीमत में कुछ गिरावट है। बेंट क्रूड का मूल्य 82 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हफ्ते के दूसरे दिन



शुरुआती कारोबार में ब्रेड क्रूड 0.50 डॉलर यानी 0.61 फीसदी की गिरावट के साथ 81.80 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं, वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) भी क्रूड 0.49 डॉलर यानी 0.61 फीसदी लुढ़ककर 79.57 यूएस डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। देश में आज पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये, डीजल 87.62 रुपये, मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपये, डीजल 89.97 रुपये, कोलकाता में पेट्रोल 104.95 रुपये, डीजल 91.76 रुपये, चेन्नई में पेट्रोल 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध है।

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 22 फीसदी बढ़कर 6.93 लाख करोड़ रुपये पर

एजेंसी नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर झटका लगने वाली खबर आई है। देश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) सालाना आधार पर 4.2 फीसदी की दर से बढ़ा है। पिछले साल जून में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर चार फीसदी रही थी। वहीं, इससे पिछले महीने मई में औद्योगिक उत्पादन ग्रेज 5.9 फीसदी थी, जबकि अप्रैल में यह दर 5 फीसदी रही थी।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि देश का औद्योगिक उत्पादन जून महीने में खनन और बिजली क्षेत्रों के अच्चे प्रदर्शन की वजह से 4.2 फीसदी की दर से बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जून में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर चार फीसदी रही थी।

आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2.6 फीसदी रही, जबकि एक साल पहले

5.2 फीसदी रही, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 4.7 फीसदी से अधिक है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की पिछला उच्चतम स्तर अक्टूबर 2023 में 11.9 फीसदी था। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के यमाने से परख कर मासिक आंकड़ा जारी करता है। देश के औद्योगिक उत्पादन की गतिविधियों को इसके जरिए ही मापा जाता है।

धनलक्ष्मी बैंक को पहली तिमाही में 8 करोड़ का घाटा

एजेंसी नई दिल्ली। निजी क्षेत्र के धनलक्ष्मी बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जून के नतीजे का ऐलान कर दिया है। अप्रैल-जून तिमाही में बैंक को आठ करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। बैंक ने इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की समान तिमाही में 28 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। धनलक्ष्मी बैंक ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कुल आय घटकर 338 करोड़ रुपये रह गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसकी आय 341 करोड़ रुपये थी। बैंक के मुताबिक 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में ब्याज से अर्जन आय 306 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 289 करोड़ रुपये थी। इस दौरान बैंक की सकल रैपिड-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) घटकर 4.04 फीसदी रह गईं, जो पिछले साल जून के अंत में 5.21 फीसदी रही थीं। उल्लेखनीय है कि धनलक्ष्मी बैंक निजी क्षेत्र का एक बैंक है। इस बैंक की स्थापना 1927 में हुई। भारत में कार्यरत इस बैंक का मुख्यालय केरल के त्रिपूर में स्थित है।



शेयर बाजार ने खारिज की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, शुरुआती गिरावट के बाद हुई रिकवरी

एजेंसी नई दिल्ली। घरेलू शेयर ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह से दरकिनारा कर दिया। हालांकि शुरुआती कारोबार में हिंडनबर्ग के नए दावों की वजह से बाजार में तेज गिरावट आई लेकिन पहले घंटे के कारोबार में ही संसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों ने रिकवरी शुरू कर दी। खरीदारी के सपोर्ट से शेयर बाजार पहले घंटे के कारोबार के कुछ देर बाद ही हरे निशान में पहुंच गया। पूरे दिन के कारोबार के बाद संसेक्स 0.07 प्रतिशत और निफ्टी 0.08 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ सपाट स्तर पर बंद हुए।

आज दिन भर के कारोबार के दौरान मेटल, रिटर्न, प्राइवेट बैंक, ऑयल एंड गैस और फार्मास्यूटिकल

सेक्टर के शेयरों में लगातार खरीदारी होती रही। ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर



एंटरप्राइज और पीएसयू बैंक इंडेक्स बिकवाली के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए। डॉडर मार्केट में भी आज आमतौर पर मजबूती बनी रही, जिसके कारण बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.51 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ। इसी तरह मिडकैप

इंडेक्स ने 0.04 प्रतिशत कि बढ़त के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज बाजार में आई कमजोरी के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कमी हो गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के कारोबार के बाद घट कर 449.80 लाख करोड़ रुपये (अर्थआई) हो गया। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 450.21 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह निवेशकों को आज के कारोबार से करीब 41 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। आज दिन भर के कारोबार में बीएसई में 4,185 शेयरों में एक्विटी ट्रेडिंग हुई। इनमें 1,946 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 2,122

शेयरों में गिरावट का रुख रहा, वहीं 117 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। एनएसई में आज 2,403 शेयरों में एक्विटी ट्रेडिंग हुई। इनमें से 1,136 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में और 1,267 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह संसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 16 शेयर बढ़त के साथ और 14 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 22 शेयर हरे निशान में और 28 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का संसेक्स आज 375.79 अंक टूट कर 79,330.12 अंक के स्तर पर खुला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण बने दबाव की वजह से थोड़ी देर में ही ये सूचकांक 479.78 अंक लुढ़क कर 79,226.13 अंक के

स्तर तक गिर गया। सुबह 11 बजे के पहले ही बाजार में खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिसके कारण हिंडनबर्ग के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए खरीदारों ने चौतरफा लिवाली शुरू कर दी। लगातार हो रही खरीदारी के सपोर्ट से दोपहर 12 बजे के पहले ही संसेक्स निचले स्तर से 880 अंक से अधिक उछल कर 400.27 अंक की मजबूती के साथ 80,106.18 अंक के स्तर पर पहुंच गया। पूरे दिन ये सूचकांक इसी स्तर के आसपास कारोबार करता रहा लेकिन आखिरी आधे घंटे के कारोबार में मुनाफा वसूली शुरू हो जाने की वजह से संसेक्स अपनी सारी बढ़त गंवा कर 56.99 अंक की मामूली गिरावट के साथ 79,648.92 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

दक्षिण कोरिया की कंपनी मरकबा ईसीडीएस मप्र में करेगी दो हजार करोड़ रुपये का निवेश

एजेंसी भोपाल। दक्षिण कोरिया और भारत की ज्वाइंट वेंचर कंपनी मरकबा ईसीडीएस के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश के दौरान राजधानी भोपाल पहुंच कर मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में निवेश योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया। मरकबा ईसीडीएस कम्पनी द्वारा प्रथम चरण में लगभग 20 प्रोजेक्ट्स में दो हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे 25 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव रावधर कुमार सिंह



तथा दक्षिण कोरिया प्रतिनिधि मंडल के सदस्य जोओंग जॉंग चेओल, खवांग ओन रेह्यू, जूनव्ही जो, गेल खवांग, जूनसंग ली और चोसिओक चंग और राजेश भारद्वाज उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव से चर्चा में कम्पनी ने प्रदेश की औद्योगिक नीति का लाभ लेते हुए वाटर एंड सीवेज

पाईप मैनुफैक्चरिंग, फार्मा, बायो टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, टूल मैनुफैक्चरिंग, आईटी, नॉन फेरस मेटल, कारबन फाईबर, बैटरी निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेन्ट्स, नैनो फाइनर फेब्रिक, बिग डेटा सोल्यूशंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी इत्यादि में निवेश की इच्छा व्यक्त की है।

आपात स्थिति में एनबीएफसी से 3 महीने के अंदर निकाल सकते हैं पूरा FD, RBI ने कहा- नहीं मिलेगा कोई ब्याज

एजेंसी नई दिल्ली। एनबीएफसी में पैसा जमा करने वालों को बड़ी राहत मिली है। अगर जमाकर्ता किसी आपात स्थिति में रकम की निकासी चाहता है तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी फंड स्वीकार करने के पहले तीन महीने के भीतर जमा राशि का 100 प्रतिशत भुगतान करेगी। आरबीआई ने कहा, इस तरह की समयपूर्व

निकासी के लिए ग्राहक को कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह नियम एक जनवरी, 2025 से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कहा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इडवीए) द्वारा निर्धारित गैर-बीमारी की परिभाषा यह तय करेगी कि ग्राहक की मांग इस श्रेणी के तहत योग्य है या नहीं। आपात स्थितियों के खर्चों में चिकित्सा या प्राकृतिक आपदाओं या

आरबीआई ने अपने आंकड़ों के मानकीकरण पर विशेषज्ञ समिति गठित की

एजेंसी मुंबई/नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। रिजर्व बैंक ने नियमित रूप से जारी होने वाले अपने आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए इस समिति का गठन किया है। इस 10 सदस्यों वाली समिति की अध्यक्षता केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा करेंगे। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा कि डिप्टी गवर्नर माइकल



देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति में 10 सदस्य होंगे। इस समिति का उद्देश्य नियमित रूप से प्रसारित किए जाने वाले आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के साथ सुधार की गुंजाइश पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। रिजर्व बैंक ने आंकड़ों के मानकीकरण पर गठित इस विशेषज्ञ समिति को नवंबर, 2024 के अंत तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता

वाली यह समिति अन्य नियमित आंकड़ों की गुणवत्ता का भी अध्ययन करेगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में आर. बी. बर्मन (पूर्व चैरमैन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग), सोनाली देसाई (राष्ट्रीय अनुसूचित आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और मैरीलेंड विश्वविद्यालय, यूएसए), पार्थ रे (निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे) और विमल रॉय (पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग शामिल हैं।

अगर आपका बच्चा भी करता है दूध पीने में आनाकानी, तो अपनाएं 4 तरीके, मिनटों में कर देगा गिलास खाली



दूध में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन के साथ-साथ कई अन्य पोषक तत्वों का खजाना होता है, जो सेहत से जुड़े तरह की समस्याओं को दूर करने में मददगार है। इससे बच्चों में कब्ज की समस्या दूर होती है और यह इम्युनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है, लेकिन माता-पिता के लिए बच्चों को दूध पिलाना काफी मुश्किल काम है। अगर आपका बच्चा भी दूध में पीने में आनाकानी करता है तो आप कुछ टिप्स को अपनाकर बच्चों को लिए दूध को टेस्टी बना सकते हैं। आज हम इस आर्टिकल में कुछ ऐसे ही तरीकों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को दूध का गिलास खाली करने पर मजबूर कर देंगे।

बादाम मिल्क

बच्चों को दूध में केसर बादाम मिलाकर देने से दूध का स्वाद बढ़ जाता है। इससे बच्चे मजे से गिलास को खाली कर देंगे। इसे घर पर बनाना भी बेहद आसान है। इसके लिए बादाम को रातभर भीगेने के लिए रख दें और सुबह इसके छिलके उतारकर इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद इस पेस्ट को दूध में मिलाएं और इसमें थोड़ा केसर भी डालें। बच्चों के लिए ये मिल्क हेल्दी होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी होगा।

ड्राई फ्रूट मिल्क

बच्चे अगर दूध पीने में नखरे करते हैं तो उसे दूध में मेवे डालकर दें। इसे बनाने के लिए पहले ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में दूध के साथ डालकर ब्लेंड कर लें। यह दूध बच्चे को दें। बच्चे इसे बहुत ही चाव से पीएंगे और यह स्वाद और सेहत दोनों ही मामलों में बेस्ट होगा।

चांकलेट मिल्क

बच्चों को चांकलेट काफी पसंद होता है और वह इस उम्र में चांकलेट से संबंधित चीजों को खाना भी पसंद करते हैं। अक्सर बच्चे नॉर्मल दूध पीने में मुह बनाते हैं। ऐसे में आप बच्चों को दूध में चांकलेट सिरप या पाउडर मिलाकर दे सकते हैं। इससे दूध का स्वाद बढ़ जाएगा और वह खुद मांग-मांगकर दूध पीएंगे।

फ्लेवर्ड मिल्क

अगर आपके बच्चे को चांकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी आदि पसंद है तो आप दूध में इन सभी फ्लेवर के एसेंस डाल सकते हैं। इसके अलावा आप दूध में ड्राई फ्रूट पाउडर भी मिला सकते हैं। छोटे बच्चों को यह काफी पसंद आएगा। इससे दूध उनके शरीर में जाएगा और वह स्वस्थ रहेंगे।

स्मूदी

गर्मी का मौसम है और अक्सर बच्चे ऐसे में गर्म दूध पीने में हिचकिचाते हैं। तपती धूप में स्कूल से घर आने के बाद अगर उन्हें दूध को स्मूदी मिल जाए तो फिर बात ही कुछ और है। बच्चे हर रोज यही डिमांड करेंगे। इसके लिए आप बच्चों को ठंडे दूध में मैंगो, बाना आदि मिलाकर स्वादिष्ट और मजेदार स्मूदी तैयार कर सकते हैं। यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद है और इसका स्वाद भी एकदम मजेदार है।

जाति जनगणना: सामाजिक न्याय की ओर कदम

इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं मगर अपनी दो भारत जोड़े यात्राओं के दौरान आम लोगों की स्थिति देखने के बाद राहुल गांधी, जाति जनगणना के प्रबल समर्थक बन गए हैं। विभिन्न जातियों की आबादी, आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है। हालिया लोकसभा आमचुनाव (मई 2024) में इंडियन गठबंधन ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने चुनाव अभियान में महत्वपूर्ण स्थान दिया। अन्य कारकों के अलावा, इस मुद्दे ने भी इंडिया गठबंधन के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन में अपना योगदान दिया। हालांकि इस गठबंधन को सरकार बनाने लायक सीटें नहीं मिल सकीं। भाजपा के गठबंधन साथी नीतीश कुमार बिहार में पहले ही जाति जनगणना करवा चुके हैं, हालांकि इस मुद्दे को अभी उन्होंने ठंडे बस्ते में रख छोड़ा है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपने भाषण में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने काफी जोरदार और प्रभावी ढंग से जाति जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने %हलवा% (सरकार से मिलने वाले लाभ) का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने वाले मुख्यतः ऊंची जातियों के हैं और बजट के लाभार्थी केवल चंद उच्च वर्ग हैं। राहुल गांधी के इस प्रभावी भाषण का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर (गौली मारो.. वाले) ने राहुल गांधी का मखौल उड़ाते हुए कहा कि जिसे उसकी खुद की जाति नहीं मालूम, वह जाति जनगणना की मांग कर रहा है। इस मामले में राहुल गांधी अनूठे व्यक्ति हैं - हिन्दू पिता, ईसाई मां, हिन्दू दादी और पारसी दादा। एक तरह से वे उस स्वतंत्र और खुले समाज के प्रतीक हैं, जो दिकियानुसी तत्वों के अंतरजातीय और अंतर्धार्मिक शक्तियों के विरोध के बावजूद देश में उभरता जा रहा है। ठाकुर की टिप्पणियों को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया मगर प्रधानमंत्री ने उनके भाषण को ट्वीट कर उसका अनुमोदन किया। जाति जनगणना आवश्यक है। कारण यह कि आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण दशकों पहले किया गया था और तब से लेकर अब तक विभिन्न जातियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी में काफी परिवर्तन आ चुका है। अनुराग ठाकुर और नरेन्द्र मोदी जिस विचारधारा के हैं, वह विचारधारा सकारात्मक भेदभाव की नीति अपनाकर हाशियाकृत समुदायों को अन्य समुदायों के समकक्ष लाने के प्रयासों के खिलाफ है। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाने मात्र से दलितों की सामाजिक समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि बेहतर आर्थिक स्थिति से सामाजिक स्थिति में भी बेहतरि आती है। भारतीय समाज जाति व्यवस्था के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ है। इसके चलते



जाति प्रथा के पीड़ितों को सामाजिक न्याय, सम्मान और गरिमा मिले, यह सुनिश्चित करवाना आसान नहीं है। दलितों को सम्मान और समानता दिलवाने का संघर्ष बहुत लम्बा और कठिन रहा है। इस दिशा में पहला प्रयास ज्योतिराव फुले ने किया था। उन्हें अहसास था कि जाति प्रथा, हिन्दू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। चूँकि दलितों को पढ़ने-लिखने नहीं दिया जाता था इसलिए फुले ने दलितों के लिए स्कूल खोले। जातिगत पदक्रम को बनाये रखने में लैंगिक असमानता की भी अहम भूमिका है। अतः सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। जातिगत व लैंगिक समानता की स्थापना के ये प्रयास करीब एक सदी पहले किये गए थे। अम्बेडकर ने इन वर्गों को और जागरूक किया। दलितों को समझ में आया कि जमींदार और पुरोहित की जोड़ी - जिसे महाराष्ट्र में शेटजी-भट्टजी कहा जाता है - उनकी सबसे बड़ी पीड़क है। इसी के चलते ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले इस आन्दोलन की राह आसान नहीं रही। उच्च जातियों के लोग हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने के गांधीजी के प्रयासों से पहले ही परेशान थे। दलितों की समान अधिकारों की मांग ने उच्च जातियों को और विचलित कर दिया। उच्च जातियों के श्रेणी वर्ग ने आरएसएस की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था हिन्दू राष्ट्र की स्थापना। हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना मनुस्मृति पर आधारित है। आरएसएस ने भारत के संविधान का इस आधार पर विरोध किया था कि उसमें भारत के स्वर्णिम अतीत के मूल्यों को जगह नहीं दी गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का असर धीरे-धीरे

समाज पर पड़ने लगा। इसके साथ ही अफवाहें फैलाने का क्रम भी शुरू हो गया। आरक्षण से लाभान्वित होने वालों को %सरकारी दामाद % कहा जाने लगा और यह तर्क दिया गया कि वे जिन पदों पर काबिज हैं, वे उनके योग्य नहीं हैं। यह भी कहा गया कि आरक्षण की व्यवस्था योग्य युवाओं की राह में रोड़ा है। ऊँची जातियों के लोगों का गुस्सा सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया। माधवसिंह सोलंकी के केएचएएम या खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम) गठबंधन की सफलता पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और सन् 1981 में गुजरात में दलित-विरोधी हिंसा भड़क गई। अध्येता अच्युत यामिनिक लिखते हैं- शिक्षित मध्यम वर्ग, जिसमें ब्राह्मण, बनिया और पाटीदार शामिल हैं, ने 1981 में आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ आन्दोलन शुरू कर दिया। सन् 1985 में पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ एक बार फिर गुजरात में दलित-विरोधी हिंसा हुई। इसी समय, विश्व हिन्दू परिषद ने राममंदिर आन्दोलन के बढ़ावा देना शुरू किया और लालकृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा शुरू की। पी. पी. सिंह, जिनकी सरकार एक ओर भाजपा तो दूसरी ओर वामपंथी दलों के समर्थन से चल रही थी, ने अपनी गद्दी बचाने की खातिर मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), जो आबादी का 55 प्रतिशत हैं, को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। ऊँची जातियां, मंडल आयोग के खिलाफ थीं। मगर चुनावी कारणों से भाजपा मंडल का सीधे विरोध नहीं कर सकती थी। उसने रथयात्रा को सफल बनाने में पूरा जोर लगा दिया। इस यात्रा को मंडल-विरोधी उच्च जातियों का

जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। मंडल का विरोध करने के लिए यूथ फॉर इक्वालिटी जैसी संस्थाएं उभर आईं। मंडल राजनीति से शरद यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता उभरे। भाजपा के शीर्ष नेता अटलबिहारी वाजपेयी ने कहा, %वे मंडल लाए तो हम बदले में कमंडल लाए% भाजपा सामाजिक न्याय की विरोधी रही है और अपने इस विरोध को उसने मुस्लिम-विरोध का जामा पहनाया। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। भाजपा का उद्देश्य है जातिगत ऊँच-नीच को बनाये रखते हुए हिन्दुओं को एक करना। मंडल पाटियां कई मामलों में सफल रहीं मगर उनमें से कुछ ने अपने संकीर्ण हितों की खातिर मनु की राजनीति से समझौता कर लिया। इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल मंडल के विरोधी रहे हैं मगर अपनी दो भारत जोड़े यात्राओं के दौरान आम लोगों की स्थिति देखने के बाद राहुल गांधी, जाति जनगणना के प्रबल समर्थक बन गए हैं। विभिन्न जातियों की आबादी, आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण करने का सबसे बेहतर आधार है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण कोटे के उप-विभाजन के सम्बन्ध में निर्णय स्वागतयोग्य है। जातिजाति आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई है, उन्हें इसका लाभ दिलवाना सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। जहां इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की मांग का खुल कर समर्थन कर रहा है वहीं एनडीए की मुख्य षटक दल भाजपा इस मांग की पूर्ति की राह में हर संभव रोड़ा अटकएगी। इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन, सभाएं आदि कर इस मांग की पूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

संपादकीय

ताजा हिंडनबर्ग रिपोर्ट : भ्रष्टाचार की नई परतें

आर्थिक मामलों तथा वित्तीय गतिविधियों की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने पिछले साल ही अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था, अब एक बार फिर एजेंसी ने जो नया मामला उजागर किया है, उसके केन्द्र में अडानी समूह तो है ही, इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। ताजा खुलासे के मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच एवं उनके पति धवल बुच ने 3 ऑफ शोर कम्पनियों में बड़ी राशि का निवेश किया है। इन कंपनियों का संबंध अडानी समूह से है। रिपोर्ट के मुताबिक आज तक सेबी ने अडानी की दूसरी सदिग्ध शयारहोल्डर कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है जो इंडिया इन्फोलाइन की इएम रिसर्च फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर से संचालित की जाती हैं। हालांकि बुच दंपती ने एक बयान जारी कर इन आरोपों को गलत बताया है। इस खुलासे के बाद अब उंगलियां प्रधानमंत्री मोदी पर भी उठ रही हैं। क्योंकि विपक्ष कई बार गौतम अडानी और नरेन्द्र मोदी के संबंधों पर सवाल उठा चुका है। संसद में भी इस पर

सवाल उठाए गए, लेकिन न नरेन्द्र मोदी न ही उनकी सरकार ने इस पर कोई संतोषजनक जवाब दिया। हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट के बाद भी अडानी समूह के खिलाफ जांच नहीं की गई, इसलिए विपक्ष के आरोप और तेज हो जाते हैं। अब श्री मोदी का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है- यह तभी माना जायेगा जब वे इन आरोपों की तत्काल जांच का आदेश दें। विपक्ष अब यह सवाल भी उठा रहा है कि 12 अगस्त तक निर्धारित संसद के सत्र को आनन-फानन में क्या इसलिए अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया क्योंकि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने की बातें सुनाई देने लगी थीं। खुद हिंडनबर्ग ने एक सूचना देकर हलचल मचा दी थी कि शनिवार को भारत में कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस मामले को पूरा समझने के लिये यह जान लेना जरूरी है कि पिछले साल की जनवरी में इस आशय की रिपोर्ट सामने आई थी कि गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें भारत सरकार का प्रथम और सहायता मिल रही है। इसके चलते ही उनके शेयरों में भारी उछाल आया था।

इसके पीछे उनके भाई विनोद अडानी द्वारा विदेशों में स्थापित ऑफ शोर कम्पनियां हैं। सरल भाषा में कहें तो ये वे कम्पनियां होती हैं जिनमें अवैध तरीके से कोई कारोबारी पैसै डालता है। फर्जी कम्पनियां होने के कारण उन पर खर्च तो होता नहीं लेकिन काला धन निवेश करने की सुविधा होती है। मोदी के साथ अडानी की नजदीकियों के कारण विपक्ष द्वारा जांच की बार-बार मांग होने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया, न ही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बिठई गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अदानी-मोदी के सम्बन्धों पर कई बार बातें उठाई गईं। अपनी पहली राष्ट्रव्यापी पदयात्रा में भी राहुल इस बात को उठाते रहे कि अदानी और अंबानी (मुकेश) मिलकर देश के सभी संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं क्योंकि उनके पीछे खुद मोदी हैं। यह सवाल भी पूछा जाता रहा है कि जब देश में गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है तो अडानी किस प्रकार से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। यह इसलिए सबके लिये आश्चर्य का विषय रहा क्योंकि कुछ ही समय पहले तक अडानी की विश्व रैंकिंग 600 के भी

नीचे थी। यहाँ यह भी याद किये जाने की आवश्यकता है कि पिछली लोकसभा के आखिरी दिनों में हुए एक सत्र में राहुल गांधी ने जब उस चित्र को दिखाया था जिसमें अडानी के हवाई जहाज में बैठकर मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिये दिल्ली आ रहे हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला उस वक्त सीधे-सीधे मोदी के बचाव में उतर आये थे। राहुल की जुवान बन्द करने हेतु उनके खिलाफ लम्बित अमानना का एक मुकदमा भी पुनर्जीवित किया गया और उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। वैसे उनकी सदस्यता बहाली सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के चलते हुई पर गौर करने वाली बात यह है कि ओम बिर्ला को ही दोबारा सदन का अध्यक्ष बनाया गया। बिर्ला के साथ अडानी की इस नयी रिपोर्ट से यह संदेह उपजाता है कि अडानी को सेबी की ओर से मिलने वाली क्लीन चिट का कारण सेबी प्रमुख का यही व्यक्तिगत हित हो सकता है। यदि अडानी समूह के खिलाफ सेबी उदार रहता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। याद रहे कि इस लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आने वाले थे।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की सुरक्षा पर चुप्पी उचित नहीं

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों के विरोध में हाल ही में राजधानी ढाका, चटगांव, कुशींगा, ठाकुरगांव, छत्रग्राम, दिनाजपुर, बरिशाल, मेमेन्सिंह, तंगेल, नीलाफामारी आदि शहरों में लाखों की संख्या में हिन्दुओं ने विरोध प्रदर्शन करके सरकार से तत्काल कट्टरपंथियों के हमलों को रोकने की मांग करते हुए, नुकसान की भरपाई की मांग करते हुए, दंगाईयों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए, पूरे विश्व समुदाय का ध्यान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के मसले पर आकर्षित करने का कार्य किया है। वैसे भी बांग्लादेश में हिंसा व तनाव के चलते ही म्यांमार की सीमा पर शरण लेने की उम्मीद से खड़े बांग्लादेशी लोगों के साथ घटित हुई बेहद हृदयविदारक घटना को अभी हाल ही में पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। वहीं भारत की बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर भी इसी तरह से लाखों की संख्या में जगह-जगह बांग्लादेशी हिन्दू भारत में शरण लेने की उम्मीद से निरंतर खड़े हुए हैं। वहीं भारत में धर्मनिरपेक्षता के तथाकथित ठेकेदार अभी तक भी इस ज्वलंत मसले पर कुंभकर्णी नौद में सोए हुए हैं, जबकि इनमें से बहुत सारे लोग मानवाधिकार के नाम पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिलिस्तीन, लिबिया, गाजा पट्टी आदि तक के आतंकियों के हक में भी खुलेआम भारत की सड़कों पर उतर करके हंगामा बरपाने से बाज नहीं आते। लेकिन आज बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचारों पर यह लोग चुपचाप तमाशबीन बनकर बैठे हुए हैं, अब इन लोगों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं का दर्द, इंसानियत का संराम होता कल्लेआम व मानवाधिकारों का उल्लंघन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग को लेकर के कुछ माह से छात्रों के द्वारा सड़कों पर जबरदस्त हंगामा बरपाया हुआ था। जिस हिंसक हंगामे की आड़ में ही बांग्लादेश में जनवरी 2024 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली शेरक हसीना सरकार का 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट करके उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। वहां के हालात को देखकर लगता है कि आरक्षण का मुद्दा तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो कट्टरपंथियों का शेरक हसीना को सत्ता से हटाकर के बिना चुनाव जीते सरकार पर कब्जा जमाना था, जिस मकसद में वह सफल भी हुए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री शेरक हसीना की सरकार का तख्तापलट करने के लिए ही कट्टरपंथी षड्यंत्रकारियों के द्वारा पूरे बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक कर आम लोगों का कल्लेआम करवा दिया गया। हिंसा का आलम यह था कि खुद प्रधानमंत्री शेरक हसीना को भी अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे, वह भी जैसे-तैसे करके बांग्लादेश को छोड़कर के भारत सुरक्षित पहुंच



पाई है। लेकिन शेरक हसीना के विरोध के नाम पर चल रहे इस पूरे हिंसक आंदोलन को हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद तो पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद आज भी बांग्लादेश में हिंसा व हंगामे का जबरदस्त दौर जारी है, वहां पर कट्टरपंथी दंगाईयों के दबाव व भय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक को भी अपना पद छोड़ना पड़ा है। इस परिस्थिति में सोचने वाली बात यह है कि 17 करोड़ की आबादी वाले मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में हिन्दुओं की आबादी तकरीबन आठ प्रतिशत 1.35 करोड़ के लगभग है, वहीं इस अधिकांश हिन्दू आबादी को परंपरागत रूप से शेरक हसीना की पार्टी आवामी लीग का कट्टर समर्थक माना जाता है। लेकिन शेरक हसीना से बांग्लादेश की सत्ता को हथियाने के इस षड्यंत्र में आवामी लीग पार्टी के नेताओं व समर्थकों का जान-माल दंगाईयों के निशाने पर शुरूआत से ही रहा है। जिसके चलते अब यह दंगाई बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं के जान-माल को निशाना बना रहे हैं। जिसके बाद वहां के अल्पसंख्यकों के विभिन्न संगठन प्रदर्शन करके व अंतरिम सरकार को खुला पत्र लिखकर के सुरक्षा मांग रहे हैं। इन संगठनों के अनुसार निशाना बनाया जा रहा है, हिन्दुओं के आवास दुकान, मंदिर, उधोग-धंधे आदि वहां के बहुसंख्यक दंगाईयों के निशाने पर क्यों आये हुए हैं, आखिर वह किसके संरक्षण पर हिन्दुओं को बेखोप होकर के नुकसान

बने हुए अमानवीय कस्त्रतापूर्ण हालात से बुरी तरह से भयभीत हैं, वह अपने भविष्य की अनिश्चितता को लेकर के बेहद डरे हुए हैं। जिसकी वजह से ही हम सभी संगठन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद युनुस से तत्काल उन्हें सुरक्षा और संरक्षण देने की मांग करते हुए कट्टरपंथी दंगाईयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा तथाकथित आंदोलनकारी छात्रों के साथ मिलकर के वहां की प्रधानमंत्री शेरक हसीना को जबरन सत्ता से हटाने के बाद से ही पूरे देश में कानून-व्यवस्था के हालात दिन-प्रतिदिन बेहद बदतर होते जा रहे हैं, अब तो पूरे देश में पुलिस तोड़फोड़ व हिंसा को केवल तमाशबीन बनकर देख रही है। दंगाईयों के द्वारा जगह-जगह सार्वजनिक व निजी संपत्ति में तोड़फोड़ करना, लूट-पाट करना, आगजनी करना, अपहरण करना, संराम हत्या करना, बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराधों की घटनाओं को अंजाम देना आम बात हो गयी है। लेकिन अब विचारणीय तथ्य यह है कि तख्तापलट के इस षड्यंत्रकारी खेल में मुस्लिम बहुल देश में अल्पसंख्यक समुदाय के 1.35 करोड़ हिन्दुओं को जानबूझकर के क्यों निशाना बनाया जा रहा है, हिन्दुओं के आवास दुकान, मंदिर, उधोग-धंधे आदि वहां के बहुसंख्यक दंगाईयों के निशाने पर क्यों आये हुए हैं, आखिर वह किसके संरक्षण पर हिन्दुओं को बेखोप होकर के नुकसान

पहुंचा रहे हैं और क्यों बांग्लादेश के आम लोग, राजनेता, पुलिस, प्रशासन व सेना आदि सब तमाशबीन बन करके चुपचाप खड़े होकर के कल्लेआम का यह तमाशा देख रहे हैं। इस हालात में अहम विचारणीय तथ्य यह भी है कि ना जाने बांग्लादेश का सिस्टम किस दबाव में आकर के इस तरह के कट्टरपंथी दंगाईयों की छतियां को गोलियों से छलनी करने से बच रहा है। सोचने वाली बात यह भी है कि बिना चुनाव जीते सत्ता हथियाने की इस जंग के मुद्दे की आड़ में हिन्दुओं के जान-माल को जबरदस्त ढंग से पहले दिन से ही हानि क्यों पहुंचायी जा रही है। धरातल पर बन रहे हालातों को देखकर लगता है कि यह स्थिति बांग्लादेश में रहने वाले हिन्दू अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सोचा-समझा षड्यंत्र है। जिस पर कम से कम अब तो विश्व भर के ताकतवर देशों व मानवाधिकारों के ठेकेदारों को तत्काल बांग्लादेश सरकार पर दबाव डालकर के लगाम लगवानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत में धार्मिक आधार पर हिंसा को अत्यंत धनगढ़त बात करने वाले लोग व धर्मनिरपेक्षता के तथाकथित ठेकेदार बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे बैठे हुए हैं, यह विचारणीय तथ्य है। हालांकि मोदी सरकार ने दूरदर्शी सोच दिखाते हुए पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर होने वाले आये दिन के अत्याचारों के कारण ही भारत में वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा देने वाले कानून सीए को लागू किया था। लेकिन देश में सीए लागू करने का विरोध करने वाले नेता व अन्य ठेकेदार बांग्लादेश में हिन्दुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करके या अपने संगठनों के माध्यम से कोई सख्त संदेश भेज कर के वहां के हिन्दू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। हालांकि स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्सप्रेस बांग्लादेश में हिन्दुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने की अपील की। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद को अवगत करवाया था कि मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मुहम्मद युनुस जिन्होंने शपथ लेते समय बांग्लादेश में लोकतंत्र, न्याय, मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम करने का वादा देा व दुनिया से किया था। वह फिलहाल बांग्लादेश की भूमि पर कहीं भी पूरा होता हुआ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। इस समय तो बांग्लादेश में केवल तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, अवामी लीग के नेताओं व हिन्दुओं का कल्लेआम होता हुआ नजर आ रहा है, जो स्थिति देश व दुनिया में आपसी भाईचारे व मानवता के लिए उचित नहीं है।

हमारे देश में हृदय से संबंधित बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। देश भर में कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हर साल ढाई करोड़ लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ये बीमारियां दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारतीयों को बहुत जल्द प्रभावित कर रही हैं। भारत में दिल के मरीज की औसत आयु अमेरिका में 70 से 80 वर्ष की तुलना में बहुत कम 50 से 60 वर्ष है। अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, तनाव, शारीरिक व्यायाम की कमी, मोटापा और खराब आहार-अधिक से अधिक लोगों में कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बमरस्याएं पैदा कर रही हैं। रक्तचाप के ऊंचे स्तर के अलावा, उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के लिए एक बड़ा जोखिम भरा कारक है। रक्त में घूम रहे कॉलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर धीरे-धीरे धमनियों की दीवारों में जमा होने लगता है, उन्हें संकरा कर देता है और हृदय में रक्त प्रवाह को कम कर देता है।



शाकाहारी लोगों के लिये प्लेक्ससीड अथवा प्लेक्ससीड तेल सहित हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सोयाबीन, राजमा जैसे सेम और अखरोट जैसे नट्स, चावल की भूसी, कैनोला और सोयाबीन के तेल फैटी वसा के प्रमुख स्रोत हैं।

दौरा पैदा करता है। निवारक स्वास्थ्य सेवा हृदय रोगों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि लोगों को मोनो असंतुप्त वसीय अम्लों (मुफा : एमयूएफए), पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड (पुफा : पीयूएफए), संतुप्त वसा और हमारे स्वास्थ्य में इनकी भूमिका के बारे में पता होगा तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे स्वस्थ वसा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं और हमारे दिल की रक्षा करते हैं। कम कार्बोहाइड्रेट या कम वसा वाले भोजन के जुनून वाले इन दिनों में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर वसा के बिना जीवित नहीं रह सकता। वसा सिर्फ ईंधन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, बल्कि यह वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करता है। वसा दो प्रकार के होते हैं - संतुप्त और असंतुप्त वसा। मक्खन या नारियल के तेल जैसे संतुप्त वसा में कमरे के तापमान पर ठोस हो जाने की प्रवृत्ति होती है। जैतून के तेल या कनोला तेल जैसे असंतुप्त वसा में कमरे के तापमान पर भी तरल रहने की ही प्रवृत्ति होती है। असंतुप्त वसा भी दो प्रकार के होते हैं - मुफा (मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड) और पुफा (पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड)।

संतुप्त वसा के लिए फायदेमंद अधिकांश भारतीय आजकल डेयरी उत्पादों, मांस और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बहुत अधिक वसा और कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर रहे हैं। दिल्ली स्थित फोर्टिस अस्पताल के न्यूट्रिशनिस्ट एवं वेट लॉस कंसल्टेंट डॉ. सिमरन सैनी के मुताबिक "अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही उपाय सही मात्रा में सही वसा खाना है। हालांकि हमें अपने आहार में संतुप्त और असंतुप्त दोनों प्रकार की वसा की जरूरत होती है, लेकिन हमें असंतुप्त वसा का ही अधिक सेवन करना चाहिए। हम रोजाना जितनी कैलोरी का सेवन करते हैं उनमें से करीब 20 से 30 प्रतिशत कैलोरी ही हमें वसा से लेनी चाहिए। हालांकि, संतुप्त वसा इसमें से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।" संतुप्त वसा और ट्रांस वसा (हाइड्रोजनित तेल और मक्खन में मौजूद) हमारे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल) के स्तर को

बढ़ा सकते हैं। उन्हें असंतुप्त वसा से स्थानापन्न करना दिल के अच्छे स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मक्खन को नकली मक्खन या फेट स्प्रेड्स जैसे अधिक संतुप्त वसा वाले उत्पादों को कम वसा वाले विकल्प के साथ स्थानापन्न करना, आहार में अधिक मुफा और पुफा वाले उत्पादों को शामिल करना और मांस से वसा को कम करना - हानिकारक संतुप्त फैटी एसिड के हमारे सेवन को कम करने का एक शानदार तरीका है। मुफा और पुफा जैसे असंतुप्त वसा को स्वस्थदायक वसा माना जाता है। मुफा विटामिन ई से भरपूर होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को विनष्ट होने से बचाती है। मूंगफली बटर, मूंगफली तेल, नट, जैतून का तेल, कनोला तेल, और सूरजमुखी तेल मुफा के अच्छे स्रोत हैं। पुफा दो प्रकार के होते हैं - ओमेगा-6 फैटी एसिड और ओमेगा-3 फैटी एसिड। ये सोयाबीन, मक्का और सैफलावर, प्लेक्स और सूरजमुखी जैसे बीज, अखरोट, सोया दूध, और टूना, सैलमॉन और सार्डिन्स जैसी वसायुक्त मछलियों जैसे तेल में पाये जाते हैं।

आम तौर पर त्वचा रोगों से कई लोग परेशान हैं। ज्यादातर लोग कई तरह की क्रीम लगाकर, दवाएं खाकर परेशान होते हैं इसके बावजूद भी उन्हें ज्यादा लाभ नहीं होता। हम जो आपको नुस्खे बता रहे हैं, उन्हें आजमाकर आप त्वचा रोगों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं।

- सोरीयेसीस - इसमें त्वचा लालिमा युक्त, फटी हुई एवं स्केली हो जाती है।

- स्किन ब्लिस्टर- लालिमायुक्त, खुजली करने वाले, वेदनायुक्त किसी भी आकार के फफोले होते हैं।

- रोसेकी - चेहरे पर अचानक सुर्ख, लाल रेखाएं, पिम्पल्स या परस्च्युल्स बनना इसके लक्षण होते हैं।

इसके अलावा ड्राई स्किन, रिग वर्म, एक्जिमा आदि अनेक समस्याएं स्किन से जुड़ी हो सकती हैं। आप यह जानकर आश्चर्य में पड़ जायेंगे कि स्किन कैंसर सबसे आम कैंसर है।

उपचार

तुलसी का रस, पुदीने का रस, चन्दन का पाउडर एवं गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाये तथा 15-20 मिनट बाद चेहरे को धो लें। पानी पर्याप्त मात्रा में पीएं, रक्त शोधक प्राकृतिक औषधी जैसे खदिर, नीम, हल्दी आदि का सेवन करें निश्चित लाभ मिलेगा।

- हल्दी एक चम्मच एवं नींबू का रस एक चम्मच लेकर पिम्पल्स वाली जगह पर लगायें।

- हल्दी के पाउडर को शहद के साथ मिलाकर पेस्ट बना लें तथा इसे रात में सोने से पहले प्रभावित हिस्से में लगायें, सुबह इसे धो लें और ऐसा लगातार दो सप्ताह तक करें, आपको पिम्पल्स से निजात मिल जाएगी।

- कच्चा पपीता बीज सहित जूस बनाकर पिम्पल्स पर लगायें, निश्चित लाभ मिलेगा।

- एक भाग गुलाब जल, एक भाग नींबू का रस मिलाकर पिम्पल्स पर लगायें 20-30 मिनट छोड़ दें, गुनगुने पानी से चेहरा धो लें यह भी काफी फायदेमंद घरेलू उपचार है।

दाग-धब्बों से निजात पाने के लिए

- चावल का आटा, जौ का आटा दरदरा पीस कर दूध में भिगोकर हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज करें, इसके अलावा पानी का भाप चेहरे पर लें आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा।

- एक भाग नींबू का रस एवं एक भाग मूंगफली का तेल मिलाकर प्रभावित हिस्से में लगायें, ब्लैक हेड्स को ठीक करने के लिए यह अचूक नुस्खा है।

- केवल उबले दूध में नींबू का रस मिलाकर भी चेहरे पर लगाने से ब्लैक हेड्स एवं क्रेक (फटी हुई) स्किन में लाभ मिलता है।

- कच्चे आलू को ग्राइंड कर पिम्पल्स, व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स पर लगायें और देखें इसका फायदा।

- टायफाइड टीक होने के बाद चेहरे पर दाग से छुटकारे के लिए प्रोटीन एव विटामिन -ई युक्त आहार का सेवन करें।

- नींबू एवं संतरे के छिलकों को सुखा लें इनका पाउडर बनाकर गुलाब जल एवं दही के साथ मिलाकर सामान्य दाग धब्बों वाले हिस्से में लगायें, निश्चित ही लाभ मिलेगा।

- अन्नानास के छिलके का पाउडर भुनकर पेस्ट बनाएं और नींबू के रस के साथ मिलाकर चेहरे पर लगायें आपको व्हाइट हेड्स से मुक्ति मिल जाएगी।

- सहिजन की फली और पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप यदि चेहरे पर लगायें तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एवं पिम्पल्स सभी में लाभ मिलता है।

- नींबू का रस समान भाग पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार कर चेहरे पर लगाएं, अब पहले गुनगुने पानी से फिर ठण्डे पानी से चेहरे को धोएं आपको निश्चित लाभ मिलेगा।

झुर्रियों के लिए

- अंडे के पीले हिस्से (योक) को सप्ताह में एक बार चेहरे पर लगायें।

- शहद, ओलीव आयल को नित्य चेहरे पर लगाना अत्यंत फायदेमंद रहेगा। पानी और दूध खूब पीयें, योग एवं प्राणायाम का अभ्यास नित्य करें, आपकी त्वचा झुर्रियों से मुक्त हो जायेगी, आप किसी भी प्राकृतिक मडस्चराईजर का प्रयोग कर सकते हैं।

- चेहरे पर आये एक बड़े तिल से निजात पाने के लिए हल्दी एवं खाने वाला चूना तिल के ऊपर लगाकर रात भर छोड़ दें, यह अपने आप ही गिर जाएगा।

- टायफाइड टीक होने के बाद चेहरे पर दाग से छुटकारे के लिए प्रोटीन एव विटामिन -ई युक्त आहार का सेवन करें।

त्वचा रोगों से पाए छुटकारा

- अन्नानास के छिलके का पाउडर भुनकर पेस्ट बनाएं और नींबू के रस के साथ मिलाकर चेहरे पर लगायें आपको व्हाइट हेड्स से मुक्ति मिल जाएगी।

- सहिजन की फली और पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप यदि चेहरे पर लगायें तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एवं पिम्पल्स सभी में लाभ मिलता है।

- नींबू का रस समान भाग पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार कर चेहरे पर लगाएं, अब पहले गुनगुने पानी से फिर ठण्डे पानी से चेहरे को धोएं आपको निश्चित लाभ मिलेगा।

झुर्रियों के लिए

- अंडे के पीले हिस्से (योक) को सप्ताह में एक बार चेहरे पर लगायें।

- शहद, ओलीव आयल को नित्य चेहरे पर लगाना अत्यंत फायदेमंद रहेगा। पानी और दूध खूब पीयें, योग एवं प्राणायाम का अभ्यास नित्य करें, आपकी त्वचा झुर्रियों से मुक्त हो जायेगी, आप किसी भी प्राकृतिक मडस्चराईजर का प्रयोग कर सकते हैं।

- चेहरे पर आये एक बड़े तिल से निजात पाने के लिए हल्दी एवं खाने वाला चूना तिल के ऊपर लगाकर रात भर छोड़ दें, यह अपने आप ही गिर जाएगा।

- टायफाइड टीक होने के बाद चेहरे पर दाग से छुटकारे के लिए प्रोटीन एव विटामिन -ई युक्त आहार का सेवन करें।

- नींबू एवं संतरे के छिलकों को सुखा लें इनका पाउडर बनाकर गुलाब जल एवं दही के साथ मिलाकर सामान्य दाग धब्बों वाले हिस्से में लगायें, निश्चित ही लाभ मिलेगा।

- अन्नानास के छिलके का पाउडर भुनकर पेस्ट बनाएं और नींबू के रस के साथ मिलाकर चेहरे पर लगायें आपको व्हाइट हेड्स से मुक्ति मिल जाएगी।

- सहिजन की फली और पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप यदि चेहरे पर लगायें तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एवं पिम्पल्स सभी में लाभ मिलता है।

- नींबू का रस समान भाग पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार कर चेहरे पर लगाएं, अब पहले गुनगुने पानी से फिर ठण्डे पानी से चेहरे को धोएं आपको निश्चित लाभ मिलेगा।

झुर्रियों के लिए

- अंडे के पीले हिस्से (योक) को सप्ताह में एक बार चेहरे पर लगायें।

- शहद, ओलीव आयल को नित्य चेहरे पर लगाना अत्यंत फायदेमंद रहेगा। पानी और दूध खूब पीयें, योग एवं प्राणायाम का अभ्यास नित्य करें, आपकी त्वचा झुर्रियों से मुक्त हो जायेगी, आप किसी भी प्राकृतिक मडस्चराईजर का प्रयोग कर सकते हैं।

- चेहरे पर आये एक बड़े तिल से निजात पाने के लिए हल्दी एवं खाने वाला चूना तिल के ऊपर लगाकर रात भर छोड़ दें, यह अपने आप ही गिर जाएगा।

- टायफाइड टीक होने के बाद चेहरे पर दाग से छुटकारे के लिए प्रोटीन एव विटामिन -ई युक्त आहार का सेवन करें।


- नींबू एवं संतरे के छिलकों को सुखा लें इनका पाउडर बनाकर गुलाब जल एवं दही के साथ मिलाकर सामान्य दाग धब्बों वाले हिस्से में लगायें, निश्चित ही लाभ मिलेगा।

- अन्नानास के छिलके का पाउडर भुनकर पेस्ट बनाएं और नींबू के रस के साथ मिलाकर चेहरे पर लगायें आपको व्हाइट हेड्स से मुक्ति मिल जाएगी।

- सहिजन की फली और पत्तियों का पेस्ट बनाकर आप यदि चेहरे पर लगायें तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एवं पिम्पल्स सभी में लाभ मिलता है।

बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी असंतुप्त वसा

कम कार्बोहाइड्रेट या कम वसा वाले भोजन के जुनून वाले इन दिनों में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारा शरीर वसा के बिना जीवित नहीं रह सकता। वसा सिर्फ ईंधन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है, बल्कि यह वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करता है।



ओमेगा 3 : चमत्कारी पोषक तत्व
डॉ. सिमरन सैनी के अनुसार ओमेगा -3 फैटी एसिड को चमत्कारिक पोषक माना जाता है जिसमें हर तरह के लाभ निहित होते हैं। यह तीन वसा - एलएए, डीपीए और डीएएए के समूह को बनाते हैं। ये मेटाबोलिज्म के लिये जरूरी होते हैं तथा रक्त के थक्के को नियंत्रित करते हैं। ये हमारे शरीर में सुजन को कम करने में मदद करते हैं तथा हृदय रोग, कैंसर, सुजन आंत्र रोग और गठिया से बचाने में मददगार होते हैं। ओमेगा -3 फैटी एसिड बुरे (एलडीएल) कोलेस्ट्रॉल और हमारे रक्त प्रवाह में घूमने वाली ट्राइग्लिसराइड्स को मात्रा कम करते हैं। इनसे मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ पहुंचता है। ओमेगा 3 अवसाद और मानसिक थकान में भी फायदेमंद हैं। शाकाहारी लोगों के लिये प्लेक्ससीड अथवा प्लेक्ससीड तेल सहित हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सोयाबीन, राजमा जैसे सेम, अखरोट जैसे नट्स, चावल की भूसी, कैनोला और सोयाबीन के तेल फैटी वसा के प्रमुख स्रोत हैं।

खूबसूरत रहना है तो करें ये व्यायाम

व्यायाम करना तन व मन के कईरों से दूर रखता है। लेकिन कुछ आसन ऐसे भी हैं, जो न सिर्फ शरीर को थोप में रखते हैं, बल्कि चेहरे का निखार भी बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ आसन जो हमारी बूढ़ा दिखने की गति को धीमा करते हैं, जाने योगाचार्य कौशल कुमार से

सर्वांगासन

पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दो गहरे सांस लें और छोड़ें। दोनों पैरों को जमीन से धीरे-धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। फिर कूल्हे को हल्का-सा जमीन के ऊपर उठा कर हाथों से कमर को सहारा देते हुए पैर तथा घड़ को गर्दन पर सीधा रखते हुए क्षमतानुसार रुकें। पैर व घड़ बिल्कुल सीधा रखें। शुरुआत में दस सेकेंड तक रुकें। अभ्यास से 5 मिनट तक ले जाएं।

न करें: उच्च रक्तचाप, हृदयरोग, रिलेप डिस्क व थाइरॉइड के रोगी।

उपासन: इसके साथ इतनी ही अवधि के लिए सुप्त वजासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन जरूर करें।



सुप्त वजासन

घुटने के बल जमीन पर बैठें। दोनों पैर की एड़ियों के मध्य नितंब को रखें। दो गहरे सांस लें और छोड़ें। दोनों हाथों को पीठ के पीछे जमीन पर रखते हुए शरीर को धीरे-धीरे पीछे झुका कर सिर को जमीन तक ले जाएं। फिर सिर का ऊपरी भाग जमीन पर रखें तथा दोनों हाथों को पेट पर रखें। आरामदायक अवधि तक रुकते हुए वापस पूर्व स्थिति में जाएं। शुरु में 15 सेकेंड तक रुकें। बाद में 4 से 5 मिनट तक कर सकते हैं।

लाभ: शरीर झुकील व ऊर्जावान होता है। सौंदर्य में वृद्धि होती है। नितंब, जांच व पेट की चर्बी घटती है। चेहरे की झुर्रियां भी दूर होती हैं।

त्रिकोणासन

सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 3 से 4 फुट का अंतर रखें। दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई तक अगल-बगल उठाएं। अब ऊपरी घड़ को दायीं और इस तरह झुकाएं कि दायीं हाथ दाएं पैर के पंजे पर आ जाए व बायां पैर बाएं कान के पास सीधा ऊपर की ओर हो। वृद्धि बाएं हाथ के पंजे पर रखें। घुटने मुड़ने न जाएं। कुछ देर रुकें और फिर पूर्व स्थिति में लेट जाएं।

इसे दूसरी तरफ से भी करें।

लाभ: यह आसन शरीर के सामने वाले हिस्से के सभी अंगों की मांसपेशियों, नसों व हड्डियों को मजबूत करता है। किडनी प्रक्रिया दुरुस्त होती है।



कपालभाति प्राणायाम

ध्यान की किसी भी मुद्रा यानी पद्मासन, सिंहासन या कुर्सी पर रीढ़, गला व सिर को सीधा करके बैठ जाएं। दो गहरे सांस लें व छोड़ें। इसके बाद नासिका द्वारा एक हल्के झटके के साथ सांस बाहर निकालें और नाक से सहज श्वास अंदर लें। यह एक आवृत्ति है। शुरुआत में इसे 25 से 30 बार करें। धीरे-धीरे नियमित व लगातार करें।

न करें: उच्च रक्तचाप, हृदयरोग, रिलेप डिस्क, हाइपरथाइरॉइड व अधिक एसिडिटी से पीड़ित।

लाभ: विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं। प्राण वायु का संचार होता है। सौंदर्य में वृद्धि होती है। झुर्रियां व धब्बे दूर होते हैं। मोटापा कम करने में मदद मिलती है।

नाडी शोधन प्राणायाम

नाडी शोधन प्राणायामों का राजा माना जाता है। यह मन की स्थिरता में वृद्धि करता है। इससे सौंदर्य के साथ-साथ सर्वांगीण विकास होता है।

विधि: ध्यान मुद्रा या कुर्सी पर सीधे बैठें। दो गहरे सांस लें व छोड़ें। इसके बाद दाएं हाथ के अंगुठे को दायीं नासिका पर रखते हुए बायीं और से गहरी, लंबी व धीमी सांस अंदर लें। अब बायीं नासिका को दायीं कनिष्ठा से बंद कर, दायीं नासिका से गहरी, धीमी व लंबी श्वास बाहर निकालें। फिर इसी दायीं नासिका से सांस भर कर बायीं नासिका से बाहर निकालें। यह नाडी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। शुरु में 6 से 12 बार इसे करें। धीरे-धीरे संख्या 36 से 72 तक ले जाएं।



अदरक हर मौसम में करें असर

अदरक व सौंठ हर मौसम में, हर घर के रसोई घर में प्रायः रहते ही हैं। इनका उपयोग घरेलू इलाज में किया जा सकता है। भोजन से पहले अदरक को चिप्स की तरह बारीक कतर लें। इन चिप्स पर पिसा काला नमक बुरक कर खूब चबा-चबाकर खा लें फिर भोजन करें। इससे अपच दूर होती है, पेट हलका रहता है और भूख खुलती है। अदरक का एक छोटा टुकड़ा छीले बिना (छिलके सहित) आग में गर्म करके छिलका उतार दें। इसे मुँह में रख कर आहिस्ता-आहिस्ता चबाते चूसते रहने से अन्दर जमा और रुका हुआ बलगम निकल जाता है और सर्दी-खाँसी ठीक हो जाती है। सौंठ को पानी के साथ घिसकर इसके लेप में थोड़ा सा पुराना गुड़ और 4-6 बुंद घी मिलाकर थोड़ा गर्म कर लें। बच्चे को लगने वाले दस्त इससे ठीक हो जाते हैं। ज्यादा दस्त लग रहे हों तो इसमें जायफल घिसकर मिला लें। अदरक का टुकड़ा छिलका हटाकर मुँह में रखकर चबाते-चूसते रहें तो लगातार चलने वाली हिचकी बन्द हो जाती है।



बांग्लादेश में हिन्दुओं की रक्षा के लिये कदम उठाये केंद्र: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने बांग्लादेश में हिन्दु अल्पसंख्यकों पर हो रही जुल्म ज्वादाती पर चिंता व्यक्त करते हुये केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने की अपील की है। सुश्री मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया 'बांग्लादेश में रह रहे हिन्दु समाज व अन्य अल्पसंख्यक चाहें वो किसी भी जाति व वर्ग के हों उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति-दुःखद एवं चिन्तनी। इस मामले को केंद्र सरकार गम्भीरता से ले व उचित कदम उठाये, वरना इनका ज्वादा नुकसान ना हो जाये।'



दिल दहलाने वाली है दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर की हत्या : प्रियंका

नयी दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्वा ने कहा कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या दिल दहलाने वाली अत्याधिक गंभीर घटना है और इस तरह के अपराधियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा 'कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा देश में बहुत बड़ा मुद्दा है और इस के लिए ठोस प्रयास की जरूरत है।' उन्होंने कहा 'मेरी राज्य सरकार से अपील है कि इस मामले में त्वरित और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और पीड़िता के परिवार और साथी डॉक्टरों को न्याय मिले।' गौरतलब है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई जिसके कारण चिकित्सकों में रोष है और आज देशभर में रिजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है।

पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करें - शिक्षा मंत्री

जयपुर। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा संकुल में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि हरियाणा राजस्थान के अन्तर्गत लगाये जा रहे पौधों के वृक्ष बनने तक नियमित देखभाल सुनिश्चित करें। बैठक में शिक्षा मंत्री ने प्रवेशोत्सव, मांडल विद्यालयों में नामांकन, कार्मिकों की भर्ती, पदोन्नति, अनुकम्पा नियुक्ति, छात्रवृत्ति, निःशुल्क टेबलेट एवं साइकिल वितरण, विद्यालय भवनों की गरमस्त एवं निर्माण कार्य, आर्टीई में प्रवेश सहित अन्य विषयों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने युग्म जातियों के नव प्रवेशित बच्चों का पृथक से रिकार्ड संभाल कर, विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट के कारणों को चिन्हित करने, आवासीय विद्यालयों में दैनिक दिनचर्या एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नियमों की पूर्ण पालना करने, कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि विद्यालयों सहित शिक्षा विभाग के कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, साथ ही अन्य लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करें।

नक्सलियों के प्लांट किए आईडी बम विस्फोट से महिला की मौत

सुकुमा। छत्तीसगढ़ के सुकुमा जिले में नक्सलियों के प्लांट किये गए आईडी बम के ब्लास्ट होने से महिला की मौत हो गई है। बताया जाता है कि किस्टाराम थाना क्षेत्र के डब्बामारका गांव निवासी महिला कवासी सुक्की शाम पांच बजे गाय चराने के लिए निकली थी। महिला गाय चराने के लिए जंगल के पगडंडी मार्ग में चल रही थी कि वह नक्सलियों के प्लांट किये गए प्रेशर आईडी बम की चपेट में आ गई। बम के फटने से जोरदार धमाका हुआ और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो वह मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना की पुष्टि सुकुमा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निखिल खेजा ने भी की है।



भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' श्रीलंका में शुरू

एजेंसी नई दिल्ली। भारत-श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास 'मित्र शक्ति' का 10वां संस्करण श्रीलंका के आर्मी ट्रेनिंग स्कूल, मद्रुक ओया में शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के बीच यह अभ्यास 25 अगस्त तक चलेगा। अभ्यास में राजपूताना राइफल्स बटालियन की 106 सैन्यकर्मियों वाली टुकड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

श्रीलंकाई दल का प्रतिनिधित्व श्रीलंकाई सेना की गाजाबा रेजिमेंट के सैन्यकर्मियों द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो बारी बारी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष यह अभ्यास नवंबर में पुणे में हुआ था। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्यास सात के तहत उग्रवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों

की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। इस दौरान किये जाने वाले सामरिक अभ्यासों में आतंकवाद पर जवाबी कार्रवाई, संयुक्त कमान पोस्ट की स्थापना, खुफिया और



निगरानी केंद्र की स्थापना, हेलीपैड संचालन क्षमता और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर-

नीतीश ने लालू और तेजस्वी का राजनीतिक भाग्य संवारा: भाजपा

एजेंसी पटना। बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव का राजनीतिक भाग्य संवारा है इसलिए दोनों को हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए।

बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार ने राजद से हाथ मिलाकर श्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव का राजनीतिक भाग्य संवारा है। उन्होंने कहा कि यदि श्री कुमार ने राजद से हाथ नहीं मिलाया होता तो यह पार्टी दुबारा नहीं खड़ी होती।

श्री जायसवाल ने कहा कि श्री लालू यादव और उनके बेटे ने कभी भी अपने परिवार के बाहर किसी 'यादव' को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में हुए

लोकसभा चुनाव में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट दिया था लेकिन श्री लालू यादव और तेजस्वी ने उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की। भाजपा

किया और भाजपा से डर पैदा करके ही वे मुस्लिमों का वोट हासिल करते रहे। वहीं, दूसरी ओर भाजपा सरकार ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं।



प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी जल्द ही राज्यव्यापी यात्रा शुरू करने वाले हैं क्योंकि राजद का आभार वोट घट रहा है। उन्होंने कहा कि यादवों को यह एहसास हो गया है कि राजद उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं

किया है। जायसवाल ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर भूमि सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों में दर्ज 60 प्रतिशत से अधिक मामले भूमि विवाद से संबंधित हैं जबकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या भी यही है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, शंभू बाईर पर एक सप्ताह में शुरू हो सकती है आवाजाही

एजेंसी नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के सोमवार के एक निर्देश के बाद पंजाब-हरियाणा शंभू बाईर पर एक सप्ताह में लोगों का आवागमन शुरू होने की संभावना है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति आर महदेवन की पीठ ने पंजाब और हरियाणा को पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे कब तक एक सप्ताह में आस-पास के संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक करें ताकि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सके। शीर्ष अदालत ने समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई, क्योंकि किसान 13 फरवरी से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों की मांगों में किसानों को उनकी उम्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी भी शामिल है। अपने आदेश में पीठ ने कहा, हम राज्यों गैर-राजनीतिक नाम सुझाने की पहल की

अधीक्षकों और दोनों जिलों के उपायुक्तों को निर्देश देते हैं कि वे करीब एक सप्ताह में एक बैठक करें



और एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं, विद्यार्थियों और आस-पास के क्षेत्र के दैनिक यात्रियों के लिए राजमार्ग को आंशिक रूप से खोलने के लिए तैयारी करने के लिए तैयार रहें। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि राज्यों ने समिति के गठन के उद्देश्य से उसके पिछले आदेशों का अनुपालन करते हुए समिति के गठन के लिए नाम सुझाए। पीठ ने कहा, हम राज्यों गैर-राजनीतिक नाम सुझाने की पहल की

सराहना करते हैं। पीठ ने कहा कि एक उचित समिति बनाई जाएगी, जिसमें निर्धारित किए जाने वाले मुद्दों के साथ-साथ उचित सिफारिशें भी की जाएंगी। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसे उम्मीद है कि सौहार्दपूर्ण और समानजनक समाधान निकलेगा। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, -अब जब स्थिति ऐसी है तो आप (पंजाब और हरियाणा) किसानों को क्यों नहीं मनाते क्योंकि राजमार्ग यात्रियों के लिए गैर-राजनीतिक नाम सुझाने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को सर्वोत्तम प्रयासों की सराहना करते हुए पीठ ने कहा कि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शंभू बाईर पर सड़क के आंशिक रूप से खोलना आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 22 अगस्त को

अगली तारीख पर शंभू बाईर पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाली समिति की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित करेगी। शीर्ष अदालत ने कहा, -राजनागर ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और जेसीबी की पार्किंग के लिए नहीं है।- शीर्ष अदालत ने 02 अगस्त को हरियाणा और पंजाब सरकारों से तटस्थ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संभावित नाम सुझाने को कहा था, जो किसानों के मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का हिस्सा हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों को अपनी शिकायतें करने का अधिकार है और उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर एक सप्ताह के भीतर बैरिकेडिंग हटाने के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।

कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई, ईडी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

एजेंसी नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले मामले के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलों सुनने के बाद सीबीआई और ईडी से 20 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कविता ने अपने

खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले के मामले में दोनों केंद्रीय एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। श्री रोहतगी ने उनका पक्ष रखते हुए पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता पांच महिने से जेल में है। उन्होंने कहा कि वह जमानत की हक्दार है, क्योंकि उनका मामला अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामलों से संबंधित फैसलों में शामिल है। ईडी ने दावा किया कि कविता 'साउथ रफ' की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में आबकारी लाइसेंसों के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप को

100 करोड़ रुपये की रिश्त देते का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि मामले के एक आरोपी विजय नायर ने कथित तौर पर सरथ रूठी, कविता और एकलु श्रीवास्तवसुलु रूठी द्वारा नियंत्रित 'साउथ रफ' से आप नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्त ली। आरोपी कविता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 01 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। कविता को पहली बार ईडी ने 15 मार्च 2024 की शाम को उनके हैदराबाद स्थित आवास से गिरफ्तार

किया था। सीबीआई ने घोटाले में अपने अलावा मामले में 11 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया था। एक जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय की एकलु श्रीवास्तव (न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा) ने कहा था कि मामले में जमानत मांगने वाले आरोपियों द्वारा की गई प्रार्थना में कोई दम नहीं है। छह मई को दिल्ली के राजद एक्वेन्यू की विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत की अपील दायर की और जमानत खारिज किए जाने को शीर्ष अदालत में उसे चुनौती दी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक

एजेंसी जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर जिले के लिए की गई बजट घोषणाओं के क्रियाव्यवहन की समीक्षा की। प्रभारी सचिव नवीन जैन ने उनकी प्रगति से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार द्वारा बजट में प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। इन घोषणाओं की समय पर क्रियान्वित के लिए सरकार कटिबद्ध है। सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं की स्थापना के लिए टीबी अस्पताल को महिला चिकित्सालय परिसर में स्थानान्तरित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त बजट का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि ब्रह्मा मंदिर

कारिडोर को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। इसकी योजना बनाने के लिए सभी को साथ लें। यहां बजट संरचना को यथावत रखते हुए विकास कार्य करावें। साफ-सफाई के साथ-साथ सुविधाओं में वृद्धि करें। पुष्कर मेले की पुरानी धार्मिक एवं आध्यात्मिक पहचान पुनः कायम करने के लिए सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। भराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था रहे। ड्रेनेज और एक्सेप्ट चैनल की लगातार सफाई करें। बचाव दलों को हमेशा अलर्ट मोड पर रखा जाना चाहिए। बहकर इन्क्यूबेटर को भी साफ करते हैं। पानी उतरने के पश्चात जल के संक्रमण से होने वाली बीमारियों के होने का अंदेश रहता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर राहुल गांधी बात करते तो अच्छा होता : टी राजा

एजेंसी रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को बधाई देने जाने को लेकर तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा ने उनकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बधाई देने से पहले हिंदुओं पर जो अत्याचार और नरसंहार हुआ, इस मुद्दे पर राहुल गांधी बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा न कर उन्होंने कांग्रेस की हिंदू विरोधी सोच को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब बांग्लादेशियों की रक्षा के लिए 1971 में पाकिस्तान को घुटनों के बल झुका सकते हैं, तो बांग्लादेश में घुसकर हिंदू विरोधी सोच को भी

समाप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जो हो रहा था उसे रोका है। हर देश के प्रधानमंत्री आज मोदी



जो को झुक कर प्रणाम करते हैं। यह पीएम मोदी की शक्ति है और अब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं। तेलंगाना

सीएम भूपेंद्र पटेल ने ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून से की मुलाकात

एजेंसी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरून से मुलाकात की। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त का पद संभालने के बाद लिंडी कैमरून की पहली गुजरात यात्रा थी। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पटेल ने उनसे बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के बीच आपसी संबंधों का पुल मजबूत हो रहा है और गुजरात भी इसे आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान नवीकरणीय

ऊर्जा, साइबर सुरक्षा क्षेत्रों सहित आपसी सहयोग पर चर्चा

में निर्माणधीन है, बल्कि गुजरात उभरते हुए वैश्विक स्तर पर भी हरित



हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ब्रिटिश उच्चायुक्त से बातचीत में कहा कि गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, न केवल दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ऊर्जा पार्क कच्छ

हाइड्रोजन जैसे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस संबंध में लिंडी कैमरून ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ब्रिटेन के साथ आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ब्रिटेन में भारतीय प्रवासी और गुजराती समुदाय की संख्या और वहां के व्यापार जगत में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने गुजरात के औद्योगिक निवेशकों के ब्रिटेन में निवेश करने पर उनका स्वागत करने और समर्थन करने की उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने गुजरात में संचालित ब्रिटिश उद्यमों को राज्य सरकार के सहयोग के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ब्रिटिश उद्योगों की उत्सुकता में स्थापित करने सहित आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त सहयता प्रदान करेगी।

भारतपुर में दो हिस्सों में बंटी दौड़ती नंदा देवी ट्रेन, एक घंटा खड़ी रही

एजेंसी भरतपुर। दौड़ती हरिद्वार-कोटा नंदा देवी पूर्णत वातायुक्त ट्रेन (12402) भारतपुर-सेवर के बीच दो हिस्सों में बंट गई। बाद में दोनों हिस्सों को जोड़कर ट्रेन आगे रवाना हुई। इस घटना के चलते मौके पर यह ट्रेन करीब पौन घंटा खड़ी रही। ट्रेन लट्टे होने से यात्री परेशान होते रहे। यात्रियों ने बताया कि भारतपुर से यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 20 मिनट देरी से सुबह 7 बजे रवाना हुई थी। रवाना होने के कुछ देर बाद ही ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। ट्रेन के दो हिस्सों में बंटते ही प्रेशर लिफ्टक हो गया। इसके चलते कुछ दूर चलते ही यह ट्रेन खड़ी हो गई।

पुल के पास खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। जबकि, बागमती सोनाखान, कटोड़ा तथा बेनीबाद में खतरों के निशान से ऊपर है। कोसी के जगन्नाइया के बलताया और कुसैला तथा गंडक नदी बुलताया घाट में खतरों के निशान से ऊपर है। घाघरा नदी सीवान के दौरीती में खतरों के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी का बीरपुर बराज के पास जलस्तर 2,07,895 क्यूसेक पहुंच गया है। बाल्मीकि नगर बराज में गंडक का जलस्तर 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।

दुष्कर्म के बाद युवक ने लड़की को पुल से नीचे फेंका, पीड़िता की हालत गंभीर

एजेंसी बांदा। उत्तर प्रदेश में बांदा शहर की कोतवाली क्षेत्र के कालुकुआं मुहल्ले की एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसका परिचित एक युवक रात जबरन उसे अपने दोस्त के कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और तड़के उसे पुल (ओवरब्रिज) से नीचे से फेंक दिया। जबकि पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने कहा, लड़की रात में अपने मित्र से मिलने उसके कमरे पर गई थी और तड़के मित्र से कहसुनी के बाद कालुकुआं पंचाईओवर से नीचे कूद गई। बांदा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अखावाल ने बताया



कि एक लड़की कालुकुआं पंचाईओवर से नीचे गिर गई है। इसी सूचना पर एक उपनिरीक्षक और पुलिस को मौके पर भेजकर घायल लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल में

भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा, इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें लड़की रविवार की रात 10-11 बजे अपने मित्र (आरोपी युवक) से मिलने उसके कमरे गई थी और सोमवार सुबह करीब चार-पांच बजे अपने घर जा रही थी, तभी मित्र से कहसुनी हो गई और

इसी झगड़े के बाद लड़की फ्लाईओवर से कूद गई। एसपी ने बताया कि परिवार वालों ने तो तहरीर दी है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य अभियुक्त और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और कठोर से कठोर सजा सुनिश्चित की जाएगी। जबकि अस्पताल में भर्ती 21 साल की पीड़िता ने मीडिया को बताया कि नैनी करके का रहने वाला सलमान भाई का कालुकुआं स्थित उसके (पीड़िता के) घर के सामने वाले घर में आना-जाना था, जिससे वह उससे परिचित था। रविवार की रात उसने अपने कमरे बुलाया और वहां से बाबूलाल चौराहा स्थित अपने दोस्त (जिसका सुरालत या

सुनील नाम है) के कमरे ले गया, जहां उसने जबरन गलत काम किया और सुबह पुल से धक्का देकर गिरा दिया। सलमान भाई मुझे (पीड़िता को) ब्लैकमेल करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस अंकेल को बताया तो कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया में एक सीसीटीवी फुटेज भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की (पीड़िता) अकेले अपने घर की कुंडी बाहर बंद कर तेजी से निकलते हुए अस्पताल देती है। फिलहाल जिला अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन खतरों से बचा है।

अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि, पटना में गंगा व पुनपुन खतरों के निशान से ऊपर

एजेंसी पटना। बिहार में गंगा सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। राजधानी पटना में गंगा और पुनपुन खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी से सटे शहर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पानी का फैलाव तटीय और दियारा क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण मुंगेर, भागलपुर और पटना के तटवर्ती इलाकों में पानी फैल रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। भागलपुर शहर के बूढ़नाथ,

बारी, बाबूपुर सहित कई इलाकों में पानी घुस गया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक, गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरों के निशान से 82 , दीघा घाट पर 19 और हाथीदह में 68 सेंटीमीटर ऊपर थी। पुनपुन भी पटना के श्रीपालपुर में खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। भागलपुर के कहलगांव में गंगा 47 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही है। इसके अलावा गंडक, कोसी, बागमती और पटना के तटवर्ती इलाकों में पानी फैल रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। भागलपुर शहर के बूढ़नाथ,

पुल के पास खतरों के निशान से ऊपर बह रही है। जबकि, बागमती सोनाखान, कटोड़ा तथा बेनीबाद में खतरों के निशान से ऊपर है। कोसी के जगन्नाइया के बलताया और कुसैला तथा गंडक नदी बुलताया घाट में खतरों के निशान से ऊपर है। घाघरा नदी सीवान के दौरीती में खतरों के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी का बीरपुर बराज के पास जलस्तर 2,07,895 क्यूसेक पहुंच गया है। बाल्मीकि नगर बराज में गंडक का जलस्तर 1,24,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।



संसद और हमारा लोकतंत्र

सदन कोई एक पार्टी नहीं चलाती, वह सबका साझा मंच है। इसीलिए उसका महत्व सरकार से भी ज्यादा है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र का इस्तेमाल हमारी राजनैतिक पार्टियां यह दिखाने के लिए कर रही हैं कि कौन उसको किस तरह से बंधक बनाए रख सकता है। जब विपक्ष सदन नहीं चलने देता और जब सत्ता पक्ष ध्वनि मत से अपने बिल पास कराता है, तो दोनों यही कर रहे होते हैं। सदन का काम विधायी है।

गनीमत है कि संसद कुछ घंटे तो चलती है। अन्यथा आप दिनलोकतंत्र का जो संसदीय नजारा विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से जनता के सामने आता है, वह बहुत उत्साह नहीं जगाता। सदन में कैमरा घूमता है तो अक्सर कोई न कोई माननीय ऊधते नजर आते हैं। कुछ सांसद सीट छोड़ कर उठ खड़े होते, शोर मचाने और बेल की तरफ बढ़ने के लिए ऐसे तत्पर दिखाई देते हैं, मानो उनकी इसी के लिए झूठी लगाई गई हो। सरकार के वरिष्ठ मंत्री आते हैं तो अपना बक्तव्य देते समय इस कदर गफलत में होते हैं। सीमा पर शहीद हो रहे हैं जवानों के विषय में भी सही जानकारी नहीं देते और बाद में सही करते हैं। विपक्षी बोलते पत्रकारों से कहती हैं कि सदन

इस्तेमाल हमारी राजनैतिक पार्टियां यह दिखाने के लिए कर रही हैं कि कौन उसको किस तरह से बंधक बनाए रख सकता है। जब विपक्ष सदन नहीं चलने देता और जब सत्ता पक्ष ध्वनि मत से अपने बिल पास कराता है, तो दोनों यही कर रहे होते हैं। सदन का काम विधायी है। वहां किसी मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा बहस होनी चाहिए। उसे विभिन्न दिशाओं से देखा - परखा जाना चाहिए। वहां किसी मुद्दे के उन पहलुओं पर भी विचार - विमर्श होना चाहिए, जिन पर किसी दूसरे मंच पर विचार करना संभव नहीं होता। उम्मीद की जाती है कि वहां नियम और नीतियां बनाने का काम होगा। लेकिन देखने को मिलता है कि जोर नियम तोड़ने और नीतियों



कैसे चलेगा यह हम (यानी उनकी पार्टी) तय करते हैं। ऐसा दावा तो अपने बहुमत के बावजूद सरकार भी नहीं कर सकती। सदन कोई एक पार्टी नहीं चलाती, वह सबका साझा मंच है। इसीलिए उसका महत्व सरकार से भी ज्यादा है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र का

को बनने से रोकने पर है। दुनिया के अनेक देशों में संसदीय लोकतंत्र है। लेकिन जैसा दृश्य यहां दिखाई देता है, वैसा अन्यत्र कम ही दिखाई देता है। अमेरिका में रिपब्लिकंस और डेमोक्रेटस ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कम राजनीति नहीं की।

कैसा होगा? आपके सपनों का भारत

नशा आपसे स्वयं पर नियंत्रण छीन लेता है। आपकी सोचने-समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। जब आप नशे की हालत में होते हैं तब सही-गलत का अंतर भूल जाते हैं। खुद का भला भी नहीं सोच पाते फिर देश के लिए वक्त कहां से निकालेंगे? अगर आप अपने आप को यूँ बर्बाद कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आप देश से प्यार नहीं कर रहे हैं।



फिर एक स्वतंत्रता दिवस। देश के प्रति अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने का दिवस। स्वयं पर स्वयं का शासन सौलीबेट करने का अवसर। हमारे यह त्योहारों की विशाल श्रृंखला में राष्ट्रीय पर्व मनाने के कितने कम अवसर हैं फिर भी हम देश के प्रति अपना प्यार व्यक्त करने के लिए इन्हीं दो दिवस का इंतजार क्यों करते हैं? थोड़ा ठहर कर सोचिएगा कि अपने ही देश को प्यार करना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? जाहिर है, देशभक्त युवाओं को यह बात स्वीकार नहीं होगी कि वे देश को प्यार नहीं करते। वे तो अपने वाहनों पर तिरंगा लहराते हैं, अपने मोबाइल में देशभक्ति की हेल्पो टयून लगाते हैं,

वर्षोंकि नशा आपको इस लायक छोड़ता ही नहीं है। नशा आपसे स्वयं पर नियंत्रण छीन लेता है। आपकी सोचने-समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। जब आप नशे की हालत में होते हैं तब सही-गलत का अंतर भूल जाते हैं। खुद का भला भी नहीं सोच पाते फिर देश के लिए वक्त कहां से निकालेंगे? अगर आप अपने आप को यूँ बर्बाद कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, आप देश से प्यार नहीं कर रहे हैं।

व्या आप महिलाओं का सम्मान करते हैं? वहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा आपने? अगर इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको सोचना पड़ रहा है। सीधे-सादे प्रश्न को समझने में भी आपको वक्त लग रहा है तो अपने आपसे पूछिए कि क्या सचमुच आप देश को प्यार करते हैं। आप दोस्तों के साथ एकांत में लड़कियों को लेकर अश्लील टिप्पणी करते हैं, आप लड़कियों की नाजूक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, आपने कितनी ही लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसा कर छोड़ दिया है, आप नेट पर आपत्तिजनक साइट्स दूढ़ते हैं, लड़कियां आपके लिए मीज-मस्ती का विषय है और सड़क चलते, बसों और अन्य जगहों पर आप उन पर फटकार करते हैं तब तो आप इस देश में रहने लायक ही नहीं हैं। फिर आपको दिखावे की देशभक्ति देश के किस काम की? यह देश सदियों से नारीत्व को सम्मान देने वाली गरिमामयी संस्कृति के लिए जाना जाता है अगर इस देश में रहकर आप नारी का किसी भी रूप में अपमान करते हैं तो आप इस देश से प्यार नहीं करते।

व्या आप सड़क पर गंदगी फैलाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको अपनी आदतों का निष्पक्ष मुआयना करना होगा। पैदल, सड़क चलते कार का दरवाजा खोलकर पान की पिक थूकते हैं, गंदी पोलिथीन, गुटखे के पाउच और सिगरेट के टुकड़े जहाँ-तहाँ फेंकते हैं। ऐतिहासिक स्थलों पर कोयले या चींके से प्रेम का इजहार करते हैं, किसी भी दीवार को बाथरूम समझ लेते हैं, घर का कूड़ा दूसरों के घर के सामने छोड़ आते हैं तो खुद ही जवाब दीजिए कि ऐसा कैसा प्यार है



अगर आप किसी भी रूप में इस तरह के काम में शामिल हैं तो देश के लिए कितने ही ऊंचे स्वर में नारे लगा लीजिए सब खोखले हैं। आप अगर सचमुच अपने देश को प्यार करते हैं तो इसे भीतर से भी खूबसूरत बनाइए। कर्मा से ऐसे आदर्श रचिए कि भ्रष्टाचार का मूल समाप्त हो सके। एक अकेले अज्ञा या किरण बेदी ही क्यों फिक्रमंद हैं देश में लोकपाल बिल लाने के लिए? हम-आप क्यों नहीं नहीं बनते उनकी ताकत? जब हम स्वयं भ्रष्टाचार से दूर होंगे तब ही तो उनका दिल खोलकर साथ दे पाएंगे।

स्क्रीनसेवर, वॉलपेपर, डेस्कटॉप, वेबपृष्ठा सब तो देश के प्यार में रंगे होते हैं फिर कैसे मान लें कि हमें इस दिन की परवाह नहीं? हमें देश से प्यार नहीं? देशभक्ति को किसी पैमाने पर नहीं मापा जा सकता इसके लिए सचमुच दिल पर हाथ रखकर खुद को ही कुछ ईमानदार जवाब देने होंगे।

व्या आप नशा करते हैं? अगर इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो माफ कीजिएगा आप अपने देश से प्यार नहीं करते। देश को सशक्त, संस्कारी और जोश से भरे युवाओं की आवश्यकता है। अगर आप नशे के शिकंजे में फंसे हैं तो चाहे दिल में आपके कितनी ही देशभक्ति लहरा रही हो लेकिन देश के वह किसी काम की नहीं। अपनी रचनात्मकता का आप दो प्रतिशत भी इस देश को नहीं देते हैं

आपका जो अपने ही प्यार देश को गंदा और अव्यवस्थित करने पर तुला है? अगर आप इनमें से कोई या इससे मिलती-जुलती वह हरकत करते हैं जो सड़क को गंदा करती है तो आपको कोई हक नहीं सरकार की नाकामियों को कोसने का। आपको कोई हक नहीं व्यवस्था को गाली देने का और तो और आपको अपने देश को प्यार करने का भी हक नहीं है। फिर भी अगर आप अपने देश को चाहते हैं तो यह चाहत देश के लिए तो बेमानी है।


व्या आप रिश्ते देते या लेते हैं? अपना काम जल्दी करवाने के लालच में आप पैसे देने से नहीं हिचकिचाते या आप खुद किसी काम को जल्दी करने के लिए ऊपरी आमदनी में विश्वास रखते हैं तो इस प्रश्न के उत्तर के

साथ ही आपने अपने देश के सच्चे नागरिक होने का अधिकार खो दिया है। भ्रष्टाचार तमाम बुराइयों की जड़ है। लालच इस भ्रष्टाचार की जननी है। अगर आप किसी भी रूप में इस तरह के काम में शामिल हैं तो देश के लिए कितने ही ऊंचे स्वर में नारे लगा लीजिए सब खोखले हैं। आप अगर सचमुच अपने देश को प्यार करते हैं तो इसे भीतर से भी खूबसूरत बनाइए। कर्मा से ऐसे आदर्श रचिए कि भ्रष्टाचार का मूल समाप्त हो सके। एक अकेले अज्ञा या किरण बेदी ही क्यों फिक्रमंद हैं देश में लोकपाल बिल लाने के लिए? हम-आप क्यों नहीं नहीं बनते उनकी ताकत? जब हम स्वयं भ्रष्टाचार से दूर होंगे तब ही तो उनका दिल खोलकर साथ दे पाएंगे।

व्या आप मक्कर हैं? अगर आप अपने काम को बोझ समझते हैं, निरंतर सुधार और बेहतरी की ओर नहीं बढ़ते हैं तो कोई हक नहीं आपको देशप्रेम के गानों पर झुमने और नाचने का। अगर आप सिर्फ अपने बॉस को दिखाने के लिए काम करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में आप केंटिन की शोभा बढ़ाते हैं या दूसरी टेबलों पर गपियां आपका प्रिय शगल है तो अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं।



अपना तो खैर कर ही रहे हैं वयोंकि बेईमानी पहले इसान को नीचे गिराती है बाद में दूसरों को हानि पहुंचाती है। जिस देश में मक्कारी और बेईमानी ने पैर फैला रखे हो वह तरकीबी की राहों पर तेजी से कैसे बढ़ सकेगा? जब देश की तरकीबी में आपका कोई योगदान नहीं तब आपका प्यार लेकर देश कैसे कामयाबी के परम लहरा सकेगा? कहने को इस तरह के प्रश्नों की लंबी फेहरिस्त है जिनके उत्तर आपको यह समझने में मददगार होंगे कि आपके मन में अपने देश के लिए कितना प्यार है। प्यार, महज आई लव माय इंडिया जैसे शब्दों से ही जाहिर नहीं होता बल्कि आपके व्यवहार, रूचि और कर्मा से अधिक दिखाई पड़ता है। इस स्वतंत्रता दिवस पर अपनी आदतों का मूल्यांकन करें और देश के लिए अच्छे इंसान बनने की पहल शुरू कीजिए।



जमाने के हिसाब से चलना ही बेहतर

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में लेवा जाति में हुआ। माना जाता है कि इस जाति के लोग भगवान राम के पुत्र लव के वंशज हैं। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाड़बाई था। आजादी की लड़ाई और फिर आजादी के बाद बनी सरकार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश की 550 से ज्यादा रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाने के लिए जाना जाता है। 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया।

उनके द्वारा कही गई कुछ प्रमुख बातें

- हमें आज का जमाना पहचान लेना चाहिए और जमाने को पहचानकर उसी के मुताबिक चलना चाहिए। जो शख्स समय नहीं पहचानता, उसे बाद में पछताना पड़ता है।
- कोई आदमी पत्थर को हीरा मानकर उसे लंबे वक्त तक रखे और संकट के वक्त उसे भुनाने जाए और फिर पछताए, तो इसमें पत्थर का क्या दोष? यह तो उस आदमी की समझ की कमी है।
- दुनिया जबदस्त स्कूल है। इसकी डिग्रियां जल्दी-जल्दी नहीं मिलती।
- आप बिल्कुल सच्ची बात कहें और खुशामद करना छोड़ दें, तो कई काम हो सकते हैं। अगर सामने कुछ कहें और पीछे कुछ और, तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरह आत्मा की अधोगति होती है।
- शिक्षक के चरित्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए शिक्षक को अपना जीवन निर्मल बनाना चाहिए।
- हम अपने धर्म का पालन करें, तो दुख भरे इस संसार में हम जरूर सुखी होंगे।
- जवानी जाते देर नहीं लगती और गई हुई जवानी कभी वापस नहीं आती। जो शख्स जवानी के एक-एक पल का इस्तेमाल करता है, वह कभी बुढ़ा नहीं होता।
- बोलने में कभी मर्यादा न छोड़ें। गालियां देना कार्यों का काम है।
- लोगों के दिल सुंदर भाषणों से नहीं हिलाए जा सकते और अगर हिलाए भी जा सकते हैं, तो महज पल भर के लिए।
- शहरों में भूख और बेकार लोग हों, तो वे उपद्रव की जड़ होते हैं। उन्हें बचाना चाहिए। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए।
- हर स्टूडेंट को किसी एक विषय में संपूर्ण ज्ञान हासिल करना चाहिए। बाकी के विषयों में ज्ञान कम हो तो भी काम चल सकता है, पर सभी विषयों में अर्गुण होने से काम नहीं चलता।
- अपनी बड़ाई गा-गाकर आदमी बड़ा नहीं हो सकता। इंसान का छोटापन या बड़प्पन उसके काम और व्यवहार से खुद ही जाहिर हो जाता है।

भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक अध्याय हैं, जो 1857 की बग़ावत से लेकर जलियांवाला नर संहार तक, असहयोग आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह तक और इसके अलावा अनेक के संघर्षों का इतिहास है। भारत ने एक लंबी और कठिन यात्रा तय की जिसमें अनेक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभियान शामिल हैं और इसमें दो मुख्य हाथियार थे सत्य और अहिंसा। हमारे आजादी के संघर्ष में भारत के राजनैतिक संगठनों का व्यापक वर्णक्रम, उनके दर्शन और अभियान शामिल हैं, जिन्हें केवल एक पवित्र उद्देश्य के लिए संगठित किया गया, ब्रिटिश उप निवेश प्राधिकार को समाप्त करना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना। 14 अगस्त 1947 को सुबह 11.00 बजे संघटक सभा ने भारत की स्वतंत्रता का समारोह आरंभ किया, जिसे अधिकारों का हस्तांतरण किया गया था। जैसे ही मध्यरात्रि की घड़ी आई भारत ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह ऐसी घड़ी थी जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने नियति के साथ भेंट टिस्ट वेडिस्टिनी नामक अपना प्रसिद्ध भाषण दिया।

नार्दन रेलवे ने के.डी. सिंह को दी मात

एजेंसी
लखनऊ। हकी लीग सीनियर मेन चैंपियनशिप टूर्नामेंट में दो मैच खेल गये। पहले मैच में नार्दन रेलवे ने के.डी. सिंह स्ट्रेडियम को 5-0 से मात दे दी। वहीं दूसरे मैच में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कालेज ने कांटे की टक्कर में के.डी. सिंह बाबू सोसाइटी को 4-3 से हराया। मो. शाहिद स्ट्रेडियम विजयतखंड गोमतीनगर में आयोजित मैच में नार्दन रेलवे ने पहले हाफ में ही तीन गोल दागकर काफी बढ़त बना ली। के.डी.एस की टीम पीछे करने की कोशिश करती रही गयी, लेकिन एक भी गोल नहीं कर सकी। नार्दन रेलवे ने 11वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहीं पहले हाफ में ही 12वें व 13वें मिनट में भी एक-एक गोल कर दिये। इसके बाद दूसरे और तीसरे हाफ में भी नार्दन रेलवे ने एक-एक गोल किये। चौथे हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और नार्दन रेलवे की टीम 5-0 से मैच जीत लिया।

वहीं दूसरे मैच में चौथे मिनट में ही गुरु गोविंद सिंह की टीम ने पहला गोल कर बढ़त बना ली, लेकिन के.डी सिंह की टीम ने आठवें मिनट में गोल दागकर बराबर कर लिया। इसके बाद के.डी सिंह बाबू ने 18वें मिनट में गोलकर बढ़त बना ली। जीजोएस ने 29वें मिनट में गोलकर पुनः बराबर कर लिया। इसके बाद 30वें मिनट में के.डी सिंह ने एक गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन 39 और 43वें मिनट में जीजोएस की टीम ने एक-एक गोल कर मैच को 4-3 से जीत लिया।

देवांग ने जीता अंडर 15 शतरंज चैम्पियनशिप

महोबा। जिला शतरंज संघ और सेंट पीटर एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंडर 15 शतरंज चैम्पियन में कुलपहाड़ के रामभुवनेश पब्लिक स्कूल के छात्रों का दबदबा रहा। जहां फाइनल मुकाबले में आरबीपीएस के दो छात्रों के बीच हुआ। जिसमें देवांग सोनी ने श्रेयस गुप्ता को पराजित कर चैम्पियनशिप पर कब्जा जमाया। जहां विजेता को दस हजार व उप विजेता को पांच हजार की राशि देकर सम्मानित किया गया। जनपद मुख्यालय स्थित सेंट पीटर्स एकेडमी में आयोजित चैम्पियनशिप में आधा दर्जन से अधिक स्कूलों के एक सेकंड से अधिक छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें सेमीफाइनल मुकाबले में आरबीपीएस के तीन छात्र पहुंचे। जिसमें देवांग सोनी ने गार्गी को व श्रेयस गुप्ता ने मयंक को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में देवांग सोनी ने श्रेयस को पराजित कर चैम्पियनशिप अपने नाम की है। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष राकेश कुमार अग्रवाल, सेंट पीटर्स एकेडमी के प्रिंसिपल फादर बास्टिन देवांग प्रमुख समन्वयक हर्ष प्रजापति द्वारा आरबीपीएस स्कूल के विजेता देवांग सोनी को दस हजार रुपए का चेक, ट्राफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। वहीं उपविजेता श्रेयस गुप्ता को पांच हजार रुपए का चेक उपविजेता ट्राफी व प्रशस्ति पत्र एवं तीसरे स्थान पर रही गार्गी को 2500 रुपए का चेक, ट्राफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हैसला बढ़ाया गया है।

दिल्ली प्रीमियर लीग मिनी आईपीएल की तरह होगी: आयुष बडोनी

नई दिल्ली। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) द्वारा 17 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाले दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए खेलने वाले मार्की खिलाड़ी आयुष बडोनी ने कहा कि यह टूर्नामेंट एक मिनी डेडिड प्रीमियर लीग की तरह होगा। यह लीग नई दिल्ली के श्री अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित की जाएगी अब तक 62 टोटो मैचों में 977 रन बना चुके बडोनी ने कहा, दिल्ली प्रीमियर लीग खिलाड़ियों को बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा। मेरे लिए यह मिनी आईपीएल की तरह होगा। इस तरह के मैच खेलने से हमेशा आत्मविश्वास बढ़ता है; इससे मुझे और दिल्ली के क्रिकेटर्स को बेहतरीन अनुभव मिलेगा। स्टार खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने की संभावना पर 24 वर्षीय बल्लेबाज ने कहा, दिल्ली के खिलाड़ी अपने आक्रामक क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। इसलिए, डीपीएल क्रिकेट प्रशंसकों के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी और मजेदार होगा। लीग के बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है, वह है शंकात शर्मा के खिलाफ खेलना। हम हमेशा यह मजाक करते हैं कि वह मुझे आउट कर देंगे, और मैं उनसे कहता हूँ कि मैं उन्हें छक्के मारूंगा, इसलिए उनके खिलाफ खेलना मजेदार होगा।

17 वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू

फिरोजाबाद। आगरा जेन में 17 वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने इसका आरंभ किया। प्रथम दिन पर जनपद अलीगढ़ एवं जनपद आगरा के मध्य फुटबॉल मैच खेला गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि 17 वीं अन्तर्जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता में आगरा कनिष्ठ-रेजिमेंट सहित जेन के कुल आठ जनपदों की पुलिस टीम हिस्सा ले रही है। फुटबॉल प्रतियोगिता में आठ जनपदों में से जिस भी जनपद की टीम विजयी होगी, वह यूपी स्टेड लेवल पर मैच खेलने जाएगी। फुटबॉल प्रतियोगिता का 14 अगस्त को समापन होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ियों एवं निर्णायकों का परिचय प्राप्त करते हुए हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दीं।

डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण पेरिस पैरालिंपिक 2024 में हिस्सा नहीं लेंगे प्रमोद भगत

एजेंसी
नई दिल्ली। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) के डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद भारत के प्रमोद भगत पेरिस पैरालिंपिक 2024 का हिस्सा नहीं होंगे। मंगलवार (13 अगस्त) सुबह बीडब्ल्यूएफ के एक बयान में पेरिस पैरालिंपिक में भाग लेने के लिए भगत की अयोग्यता की पुष्टि की गई।

बयान में कहा गया, '01 मार्च 2024 को जारी एक निर्णय के माध्यम से, सीएसए एंटी-डोपिंग डिवीजन ने पाया कि भगत ने बीडब्ल्यूएफ एंटी-डोपिंग विनियमों के अनुच्छेद 2.4 (डिफेंस) का उल्लंघन किया था, उन्होंने 12 महीनों के भीतर तीन डिफेंस विफलताओं को अंजाम दिया था। परिणामस्वरूप, उन पर 01 सितंबर 2025 तक 18 महीने की अयोग्यता की अवधि लगा दी गई। भगत ने इस निर्णय के खिलाफ सीएसए अपील प्रभाग में अपील की। 29 जुलाई 2024 को,

सीएसए अपील डिवीजन ने खिलाड़ी की अपील को खारिज कर दिया और 11 दिवसीय प्रतियोगिता 11 अगस्त को ओलंपिक के समापन के ठीक दो



01 मार्च 2024 के सीएसए एंटी-डोपिंग डिवीजन के फैसले की पुष्टि की। तदनुसार, श्री भगत की अपात्रता की अवधि अब पुष्टि की गई है। पेरिस पैरालिंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा।

पदक जीता था। एसएल (निचले स्तर पर खड़े होना) 3 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए है जिनके शरीर का एक तरफ का हिस्सा, दोनों पैर मामूली रूप से प्रभावित होते हैं, या कोई अंग नहीं होता है। दृढ़ संकल्प और रणनीतिक प्रतिभा के संयोजन ने भगत को पैरा-बैडमिंटन के शिखर पर पहुंचा दिया। टोक्यो में उनकी स्वर्ण पदक जीत वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम थी। एक रोमांचक फाइनल में, भगत ने ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर खेलों में भारत के लिए चौथा स्वर्ण पदक सुरक्षित किया। 1988 में जन्मे भगत के जीवन में पांच साल की उम्र में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आया जब उन्हें पोलियो हो गया, जिसके परिणामस्वरूप उनका बायां पैर विकलांग हो गया। अपनी शारीरिक चुनौतियों से विचलित हुए बिना, युवा भगत ने तेरह साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और एक पेशेवर खिलाड़ी बनने की यात्रा पर निकल पड़े।

मेसी अमी इंटर मियामी में वापसी के लिए तैयार नहीं: मार्टिनी

एजेंसी
मियामी। इंटर मियामी के मैनेजर गेराडो मार्टिनी ने कहा कि खिलाड़ी लियोनेल मेसी पिछले महीने कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना

अलग से प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 जुलाई को कोपा अमेरिका फाइनल में अर्जेंटीना की कोलंबिया पर 1-0 की जीत के दौरान अपने दाहिने टखने में सहायक में खिंचाव के बाद से



के लिए खेलते समय लगी टखने की चोट से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं। मार्टिनी ने माना कि उन्हें अभी भी नहीं पता कि 37 वर्षीय मेसी कब पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह संतोषजनक तरीके से ठीक हो रहे हैं।

मार्टिनी ने संवाददाताओं से कहा, वह हमारी उम्मीदों के मुताबिक प्रगति कर रहे हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि वह [पहली टीम] समूह के साथ कब जुड़ पाएंगे। फिलहाल, वह

मेसी ने कोई मैच नहीं खेला है। इंटर मियामी के लिए उनका सबसे हालिया मैच एम्पलएस में सेंट लुइस के साथ 3-3 से धेरूले ड्रॉ था। मेसी ने इस साल इंटर मियामी के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 15 मैचों में 14 गोल किए हैं और 11 अस्सिट दिए हैं। फ्लोरिडा की यह टीम 25 मैचों में 53 अंकों के साथ एम्पलएस ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टींडिंग में शीर्ष पर है, जो दूसरे स्थान पर मौजूद सिनसिनाटी से पांच अंक आगे है।

उरुग्वे के डिफेंडर डेमियन सुआरेज़ ब्राजील के सेरी ए क्लब बोटाफोगो से बाहर होने को तैयार

एजेंसी
रियो डी जेनेरियो। उरुग्वे के अंतरराष्ट्रीय डिफेंडर डेमियन सुआरेज़ ब्राजील के सेरी ए क्लब बोटाफोगो के साथ अपने दो साल के अनुबंध के आधे से भी कम समय में क्लब छोड़ने के लिए तैयार हैं। फरवरी में स्पेन के गेटाफे से रियो डी जेनेरियो की टीम में शामिल होने के बाद से सुआरेज़ बोटाफोगो के लिए राइट-बैक की भूमिका में मुख्य खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन ग्लोबो एस्पोंटे की रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में ट्रांसफर अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद 36 वर्षीय खिलाड़ी का खेल खराब हो गया है, क्योंकि एसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें उरुग्वे के पेनारोल के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बोटाफोगो के

मैनेजर आर्तूर जॉर्ज ने सुआरेज़ से कहा है कि वह अब क्लब की हैं, ने मोटेबीडियो स्थित टीम डिफेंसर के साथ अपना कैरियर शुरू किया



योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। सुआरेज़, जो उरुग्वे की राष्ट्रीय टीम के लिए सात बार खेल चुके

ब्राजील के फॉरवर्ड एवर्टन चोटिल, दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल सत्र के शेष भाग से हुए बाहर

एजेंसी
रियो डी जेनेरियो। फ्लामेंगो के फॉरवर्ड एवर्टन सोरेस चोटिल होने के कारण दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल सत्र के शेष भाग से बाहर रहेंगे। क्लब ने उक्त जानकारी दी। ब्राजील के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को ब्राजील की सीरी ए चैंपियनशिप में फ्लेमिंगो के पाल्मिरास के साथ 1-1 के धेरूले ड्रॉ के दौरान चोट लगी थी। बाद के परीक्षणों से यह पता चला कि उन्हें सर्जरी करानी होगी, जिसके बाद वह पुनर्वास अवधि शुरू करेंगे, जिसमें छह से आठ महीने लगने की उम्मीद है। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने एक संक्षिप्त सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं और मजबूत होकर वापस आऊंगा। एवर्टन, जो ब्राजील के लिए 25 बार खेल चुके हैं, ने 2022 में बेनफिका

से फ्लेमिंगो में शामिल होने के बाद से सभी प्रतियोगिताओं में सिर्फ 14 गोल

तीसरे स्थान पर है, जो टेबल लीडर बोटाफोगो से दो अंक पीछे है।



किए हैं। फ्लेमिंगो वर्तमान में ब्राजील की 20-टीम सीरी ए स्टींडिंग में

मुरादाबाद जोन से 9 खिलाड़ी ट्रायल देने जाएंगी: विजय गुप्ता

मुरादाबाद। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मुरादाबाद के सचिव व पूर्व रणजी खिलाड़ी विजय गुप्ता ने बताया कि 15 वर्ष से कम आयु की महिला खिलाड़ियों का उत्तर प्रदेश महिला क्रिकेट टीम अंडर-15 हेतु चयन 16 व 17 अगस्त को कमला क्लब कानपुर में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा।

इसमें मुरादाबाद जोन से 9 खिलाड़ी ट्रायल देने जाएंगी विजय गुप्ता ने आगे बताया कि यूपीसीए द्वारा यूपी गर्ल्स क्रिकेट टीम अंडर 15 ट्रायल हेतु मुरादाबाद जोन से अलिफशा, सलीम खत, लवी भाव, वैष्णवी, अंशिका राजपूत, वर्णवी, ईशिका, रश्मि चौहान और अंशिका ट्रायल देंगी। ट्रायल देने जाने वाली खिलाड़ी अपने साथ अपडेट आधार कार्ड, फोटो व जन्मतिथि का मूल प्रमाण पत्र अवश्य लेकर जाएं।

ईसीबी और क्रिकेट स्कॉटलैंड ओलंपिक 2028 में टीम ग्रेट ब्रिटेन को उतारने की बन्ना रहे योजना

एजेंसी
लंदन। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और क्रिकेट स्कॉटलैंड ने लॉस एंजिल्स में 2028 ओलंपिक खेलों में पुरुष और महिला ग्रेट ब्रिटेन (जीबी) क्रिकेट टीमों को मैदान में उतारने की योजना के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। क्रिकेट 1900 के बाद पहली बार ओलंपिक में वापस आया, जब पिछले साल के अंत में इसे शामिल किए जाने की पुष्टि की गई थी। विवरण की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन आईसीबी ने महिला और पुरुष दोनों प्रतियोगिताओं के लिए छह-टीम टी-20 टूर्नामेंट का प्रस्ताव दिया है, जो लगभग एक सप्ताह तक चलने की उम्मीद है और जो संभवतः एक साथ नहीं बल्कि लगातार खेले जाएंगे। क्वालिफिकेशन विवरण की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन आईसीबी की टी-20 रैंकिंग का कुछ हद तक उपयोग किया जाएगा। अधिकांश देश अपनी सामान्य शैली में प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन अगर इंग्लैंड क्वालिफाई करता है तो वे

बाकी ओलंपिक की तरह ग्रेट ब्रिटेन के रूप में खेलेंगे। इससे ब्रैंडन मैकमुलेन या सारा और कैथरीन ब्राइस जैसे कुछ स्कॉटिश खिलाड़ियों के प्रतिस्पर्धा करने की संभावना खुल जाती है। ईसीबी और क्रिकेट स्कॉटलैंड ने प्रस्तावित जीबी क्रिकेट टीमों पर एक साथ काम करने के बारे में प्रारंभिक चर्चा की है। क्रिकेट स्कॉटलैंड अपने संचालन में सक्रिय भागीदारी के लिए जोर दे रहा है और खिलाड़ियों और कर्मचारियों का योगदान देने के लिए उत्सुक है, लेकिन ईसीबी टीमों का नामित शासी निकाय होगा। ईसीबी के प्रवक्ता ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो को बताया, लॉस एंजिल्स ओलंपिक में अभी चार साल बाकी हैं, यह अभी बहुत शुरुआती चरण है, लेकिन हम टीम जीबी और क्रिकेट स्कॉटलैंड से अगले कदमों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर ग्रेट ब्रिटेन के ओलंपियनों ने इस साल पेरिस में अपने कारनामों से राष्ट्रीय स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया है, और हम 2028 में ओलंपिक मंच पर क्रिकेट की वापसी पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मिलकर काम करने

के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, इंग्लैंड और वेल्स द्वारा 2026 और 2030 में महिला और पुरुष [टी20] विश्व कप की मेजबानी के साथ, यह खेल को आगे बढ़ाने और अधिक लोगों को क्रिकेट के प्रति प्रेम विकसित करने के लिए प्रेरित करने का एक और शानदार निकाय के रूप में नामित कर सकते हैं और अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि क्रिकेट भी ऐसा ही होगा। एएसन, जो लंकाशायर के अध्यक्ष हैं, ने कहा, ईसीबी इसके केंद्र में होगा। उन्हें क्रिकेट स्कॉटलैंड के साथ मिलकर काम करना होगा क्योंकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठीक से हो। हम उन्हें एक साथ आने और एक एकरा राष्ट्रीय शासी निकाय बनाने के लिए समझौते

पर हस्ताक्षर करने में मदद करेंगे, जैसा कि हमने उन अन्य खेलों में किया है। हम उन्हें पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनाने के लिए ईसीबी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टीम जीबी आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड ओलंपिक टीम है, और उत्तरी आयरलैंड के एथलैट टीम जीबी या आयरलैंड में से किसी एक के लिए प्रतिस्पर्धा करना चुन सकते हैं। लेकिन यूक्रेन क्रिकेट का आयोजन पूरे आयरलैंड में किया जाता है, इसलिए मार्क एंड्रयू और पॉल स्टर्लिंग जैसे उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख क्रिकेटर्स को टीम जीबी के लिए खुद को नामांकित करने की संभावना बहुत कम है। 2028 ओलंपिक में अलिफशा, सलीम खत, लवी भाव, वैष्णवी, अंशिका राजपूत, वर्णवी, ईशिका, रश्मि चौहान और अंशिका ट्रायल देंगी। ट्रायल देने जाने वाली खिलाड़ी अपने साथ अपडेट आधार कार्ड, फोटो व जन्मतिथि का मूल प्रमाण पत्र अवश्य लेकर जाएं।

क्रिकेट वेस्टइंडीज से अलग होंगे जांजी ग्रेट्स ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के बैट की हालत हुई खराब, लिखा- रिटायर करने का समय आ गया है

एजेंसी
नई दिल्ली। क्रिकेट वेस्टइंडीज (सीडब्ल्यूआई) के लंबे समय से सीटों और रेड जांजी ग्रेट्स ने संगठन से नाता तोड़ लिया है। वह अक्टूबर के अंत तक सीडब्ल्यूआई छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, यह सही समय है कि कोई नया व्यक्ति नई ऊर्जा के साथ संगठन का नेतृत्व करे और इस महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखे तथा मौजूदा मजबूत नींव पर काम करे। सीडब्ल्यूआई ने कहा कि वह अगले सीईओ का चयन करने के लिए एक व्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। ग्रेव (48), जो फरवरी 2017 से इस पद पर हैं, ने क्रिकबज को बताया, मैं चाहता था कि मैं सीडब्ल्यूआई को गर्वनेंस रिफॉर्म पर और अधिक प्रगति करने और बेहरी रिपोर्टों की सिफारिशों को लागू करने में मदद कर पाता, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अधिक न्यायसंगत मॉडल के साथ आईसीसी स्तर पर अधिक प्रगति कर पाता और विशेष रूप से जमीनी स्तर पर क्रिकेट के लिए सीडब्ल्यूआई को नया राजस्व लाने के लिए और अधिक काम कर



खिलाड़ियों के बीच संबंधों को काफी बेहतर बनाया। हाल ही में, उन्होंने सीडब्ल्यूआई और वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन (डब्ल्यूआईपीए) के बीच एक समझौता ज्ञान की सुविधा प्रदान की, जो खिलाड़ियों को आईपीएल और सीपीएल टूर्नामेंट के लिए निर्दिष्ट विंडो की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, यह समझौता

2027 तक पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच वेतन समानता सुनिश्चित करता है। उनके नेतृत्व में, सीडब्ल्यूआई ने वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के सहयोग से, उन्होंने बायोसिक्योर क्रिकेट मॉडल का बीड़ा उठाया, जिसने इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने में सक्षम बनाया। उन्होंने सीडब्ल्यूआई, सीपीएल और फ्रेंचाइजी के बीच एक अच्छे समीकरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीडब्ल्यूआई के अध्यक्ष डॉ किशोर शाली ने कहा, जानी के प्रयासों, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, साथ ही तीन विश्व कप की सफलतापूर्वक मेजबानी ने सीडब्ल्यूआई पर एक स्थायी प्रभाव डाला है। सराहनीय रूप से, संगठन ने उनके कार्यकाल के दौरान कई सकारात्मक कदम उठाए हैं। एक असाधारण उपलब्धि क्लिनिक क्रिकेट ग्राउंड का अधिग्रहण और पूर्ण स्वामित्व है, जो अब हमारा मुख्यालय है और हमारी पुरुष और महिला अकादमियों का घर है।

उल्लेखनीय है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम वनडे विश्वकप 2023 जीतने के प्रबल

अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241

उत्तरे थे और सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड के साथ साझेदारी कर जीत की नींव रख दी थी। उन्होंने हेड के साथ चौथे विकेट के लिए 192 रन की साझेदारी की थी। हेड ने अंतिम शतक (137) मारा था, वहीं लाबुशेन ने 58 रनों की पारी खेली थी।

रोहित आराम से अगले दो साल जबकि विराट पांच साल तक खेल सकते हैं: हरभजन सिंह
नई दिल्ली। भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर खिलाड़ी हरभजन सिंह का मानना है कि विराट कोहली अपनी बेहतरीन फिटनेस के साथ अगले पांच साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के व्यस्त कैलेंडर से आसानी से तालमेल बैठा सकते हैं जबकि टैट्ट और एकदिवसीय कप्तान रोहित शर्मा भी आराम से अगले दो साल तक खेल सकते हैं। हरभजन ने वीडियो को दिये विशेष साक्षात्कार में कहा, 'रोहित आसानी से दो साल और खेल सकते हैं। आप विराट कोहली की फिटनेस की तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें आसानी से पांच साल तक खेलते हुए देख सकते हैं। वह शायद टीम में सबसे फिट खिलाड़ी हैं।'

आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया

एजेंसी
दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के बाद जुलाई के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, वहीं श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अटापट्टू को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ

अर्वाड के लिए चुना गया है। आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुस्कार जीतने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गस एटकिंसन ने कहा कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुस्कार जीतना वास्तव में सम्मान की बात है। मेरे टेस्ट करियर की शुरुआत अविश्वसनीय रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंग्लैंड के साथ अपनी पहली सीरीज में मुझे इतनी सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपने देश के लिए खेलना और उसका प्रतिनिधित्व करना सम्मान की बात है। मुझे पता

है कि आगे बहुत मेहनत करनी है। खामसत श्रीलंका के खिलाफ बड़ी सीरीज आने वाली है। मैं निरंतरता बनाए रखने और इंग्लैंड को सफल बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उत्साहित हूँ। आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता चमारी अटापट्टू ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं तीसरी बार आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने जाने पर खुश और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह देखकर खुशी हो रही है कि मेरे प्रयासों को, जो मैंने मेरे

साथियों और कोचों के सहयोग से हासिल किए हैं, क्रिकेट जगत द्वारा लगातार मान्यता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये सम्मान उन हजारों लड़कियों को एक सकारात्मक संदेश देगा, जो पहले से ही मेरे देश में और अन्य जगहों पर क्रिकेट खेल रही हैं और अपने देश के लिए खेलना चाहती हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एटकिंसन ने सबसे लंबे प्रारूप में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शानदार शुरुआत की।

रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट खोकर 43 ओवर्स में हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम एक समय तीन विकेट खोकर 47 रनों पर थी लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने बाजी मार ली।



पलक तिवारी

इब्राहिम अली खान के रिश्ते पर श्वेता तिवारी ने वो कह दिया, जो अबतक कोई नहीं जानता था!

श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। कई फिल्मों और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। अपने अभिनय से फैन्स को इम्प्रेस करती रही हैं। श्वेता तिवारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। हालांकि, श्वेता की तरह ही उनकी बेटी पलक तिवारी भी लाइमलाइट में रहने का एक मौका नहीं छोड़तीं। बहुत कम वक में पलक तिवारी अपनी पहचान बना चुकी हैं। साल 2023 में उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि, पिछले लंबे वक से उनका नाम सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान से जुड़ा रहा है। कई इवेंट्स में साथ स्पॉट हो चुके हैं। दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन इस डेटिंग की अफवाह पर श्वेता तिवारी ने चुप्पी तोड़ी है। मूवी थिएटर से लेकर पार्टी तक पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान कई मौकों पर साथ दिखाई दिए हैं। पैराजी भी दोनों को कैप्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि इब्राहिम कई बार भड़कते हुए भी दिखाई दिए हैं। जबकि, पलक तिवारी पैस को देखने के बाद गाड़ी में चेहरा छिपाती नजर आईं। क्या दोनों में सच में डेट कर रहे हैं? श्वेता तिवारी ने सब कुछ बता दिया।

पलक-इब्राहिम के रिश्ते पर श्वेता तिवारी ने क्या कहा ?

हाल ही में श्वेता तिवारी ने बेटी पलक तिवारी की डेटिंग लाइफ को लेकर चल रही अफवाहों पर खुलकर बात की है। श्वेता तिवारी ने फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स के साथ बेटी पलक का नाम जोड़े जाने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि पलक तिवारी इस तरह की अफवाहों को भले ही हंसी में उड़ा देती हों, पर इमोशनली इसका उन पर असर पड़ता है।

श्वेता तिवारी ने Galatta India से बातचीत करते हुए कहा कि, पलक तिवारी अभी स्टूडिंग हैं, लेकिन कल कोई आर्टिकल या फिर कमेंट उनके कॉन्फिडेंस को हिला सकता है। वो अभी भी बच्ची हैं। कई बार चीजें काफी खराब होती हैं। जैसे कि- उनका हर दूसरे लड़के के साथ कोई न कोई चक्कर है। यह कहा जाता है, जो गलत है। हालांकि, श्वेता तिवारी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पलक तिवारी अक्सर इन अफवाहों को हलके में लेती हैं। पर फिर भी ये उन्हें अंदर से प्रभावित कर सकती हैं। आगे कहा कि- मुझे भी नहीं पता कि वह यह सब कब तक बर्दाश्त करेगी। यहां तक कि वो भी अपनी डेटिंग की अफवाहों को लेकर काफी हैरान हैं।

डेटिंग पर पलक तिवारी ने क्या कहा ?

श्वेता तिवारी ने बताया कि पलक अक्सर इन डेटिंग की अफवाहों का मजाक उड़ाती हैं। वो मुझसे कहती हैं कि, 'आपको पता है मां मैं अभी इस लड़के को डेट कर रही हूँ और इस पर हंसती भी है। लेकिन कई बार यह उसे परेशान कर सकता है। हालांकि, श्वेता तिवारी ने बताया कि, पलक और इब्राहिम दोनों अच्छे दोस्त हैं।

हम अपने रिश्ते, प्यार और...

जैस्मिन भसीन

और अली गोनी का हुआ ब्रेकअप? एक्ट्रेस ने खुद तोड़ी चुप्पी

छोटे पर्दे पर काम करने वाले कई एक्टर्स और एक्ट्रेस की जोड़ियां बनी हैं। कई सितारे तो शादी भी कर चुके हैं, लेकिन अली गोनी और जैस्मिन भसीन को जोड़ी को लोग जितना पसंद करते हैं, उतना शायद ही किसी और जोड़ी को पसंद किया गया हो। शायद यही वजह है कि जैस्मिन भसीन का मजबूत बनने और प्यार को छोड़ने को लेकर किए गए एक क्रिप्टिक पोस्ट के बाद फैस परेशान हो गए थे। कई लोगों को लगा कि जैस्मिन और अली का रिश्ता टूट गया है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अफवाहों को बढ़ता देख खुद जैस्मिन ने ही ब्रेकअप की खबरों पर फूल स्टॉप लगा दिया है। जैस्मिन भसीन ने पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, उठी तो पता चला कि कुछ फनी सोशल मीडिया पोस्ट और अफवाहें उड़ रही हैं। डियर वर्ल्ड, हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम संतुष्ट हैं और अपनी पार्टनरशिप में स्थिर भी हैं। इंस्टा स्टोरी में उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि आपको सच्चाई का पता हो और आप ये समझें कि कोई भी अफवाह सही नहीं है।

उन्होंने लिखा है, हम अपने रिश्ते, प्यार और यकीन की अहमियत को समझते हैं। जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उन्होंने लिखा है कि हम बस इस बात को लेकर आपका साथ चाहते हैं कि आप चल रही अफवाहों और गॉसिप पर यकीन न करें। जैस्मिन ने अपनी प्राइवसी का सम्मान करने के लिए सबका शुकिया अदा भी किया है।

बिग बॉस 14 में हुआ प्यार

जैस्मिन भसीन और अली गोनी लंबे वक से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं। सलमान खान के शो बिग बॉस 14 में दोनों ही कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुए थे। इसी शो में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। जैस्मिन और अली को एक दूसरे से तभी प्यार हो गया था। शो के दौरान ही दोनों की बॉन्डिंग फैस को खूब पसंद आई थी। कई बार ऐसा देखा गया है कि

बिग बॉस के घर में बना रिश्ता बाहर आकर टूट जाता है, लेकिन जैस्मिन और अली के मामले में उल्टा हुआ। बाहर आने के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत होता ही दिखाई दिया है। दोनों खुलकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। अक्सर साथ दिखते हैं और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करते हैं।



सांसें रोक देगा **ऋतिक रोशन** का एंटी सीन, जूनियर NTR का काम तमाम करने के लिए ली स्पेशल ट्रेनिंग!



साल 2025 बॉलीवुड के लिए जबरदस्त साबित होगा। इसकी वजह है वो मेगा बजट फिल्में, जो सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। YRF स्पाई यूनिवर्स की जिन फिल्मों पर इस वक काम चल रहा है, वो हैं- 'वॉर 2' और 'अल्फा'। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अगले साल रिलीज नहीं होगी। इस यूनिवर्स की सबसे पहले जो पिक्चर आएगी, वो है- War 2. फिल्म की शूटिंग चल रही है। ऋतिक रोशन के अपोजिट जूनियर एंटीआर नजर आएंगे। वो पिक्चर में विलेन बन रहे हैं। वहीं, इन दोनों के अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी भी दिखाई देंगी। फिलहाल उनके हिस्से की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। इसी बीच फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी सामने आई है। हाल ही में बॉलीवुड हंगामा पर एक रिपोर्ट छपी। इससे पता लगा कि फिल्म में ऋतिक रोशन का एंटी सीन कुछ ऐसा होगा, जो दर्शकों की सांसें रोक देगा। यू तो पहले ही जूनियर एंटीआर और ऋतिक रोशन के एक्शन सींस शूट किए जा चुके हैं। फिल्म में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। पर एंटी सीन के अलावा एक और जाबड़ एक्शन सीन होगा, जिसकी जानकारी अब मिलती है।

War 2 में वो होगा, जो पहले पार्ट में दिखा नहीं!

'वॉर 2' को लेकर लगातार कई बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट छपी। इससे पता लगा कि, जापानी मॉनिस्ट्री में एक सीन फिल्माया गया है, जहां ऋतिक रोशन और विलेन बन रहे जूनियर एंटीआर तलवारबाजी करते नजर आएंगे। पहले खबर थी कि ऋतिक शाओलिन मॉडि में एक एक्शन सीन करेंगे। पर अब खबर है कि यह उनका इंट्रोडक्शन सीकेंस होगा।

यह सीन मार्च में शूट किया गया था। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ आनंद ने तब बनाया था, जब उन्हें लगा कि उन्होंने फैंचाइज में ओरिएंट को बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं किया है। मुंबई के अंधेरी में YRF स्टूडियो में एक बड़ा सेट बनवाया गया था। फिल्म में इसे एक पहाड़ी की चोटी पर 300 साल पुराने हेरिटेज मॉनिस्ट्री के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा ऋतिक रोशन ने न केवल हथौते तक माइल आर्ट की ट्रेनिंग ली, बल्कि जापानी तलवार कटाना का इस्तेमाल करना भी सीखा है। जूनियर एंटीआर के खाते में इस वक कई बड़ी फिल्में हैं। जल्द वो 'देवरा' से कामबंद करने वाले हैं। इस फिल्म के अलावा वो ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' में विलेन बन रहे हैं। वहीं, प्रशांत नील की फिल्म 'डूंगन' का प्री-प्रोडक्शन वर्क चल रहा है। 'देवरा' के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। पर YRF स्पाई यूनिवर्स वालों ने जूनियर एंटीआर के लिए लंबी तैयारियां कर रखी हैं।

70 दिनों तक लगातार चली 'लाहौर 1947' की शूटिंग, अब सनी देओल-आमिर खान की फिल्म पर सामने आई ऐसी जानकारी



सनी देओल बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से 'गदर 2' जैसा ही धमाका करने की तैयारी में हैं। आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले 'लाहौर 1947' के नाम से फिल्म बन रही है, जिसे सनी देओल लीड कर रहे हैं। प्रीति जिंटा उनके अपोजिट दिखने वाली हैं। इसी साल फरवरी में इस फिल्म का ऐलान हुआ था। उसके बाद से ही इस पर काम चल रहा है। फैन्स भी इस पिक्चर को लेकर एक्साइटेड हैं, जिस वजह से अक्सर ही सोशल मीडिया इस फिल्म को लेकर माहौल गर्म रहता है। अब इस फिल्म को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसे जानने के बाद फैन्स और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। 70 दिनों से सनी देओल की इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। खास बात ये है कि इसकी शूटिंग 70 दिनों तक लगातार चली है। इस दौरान कोई भी ब्रेक नहीं लिया गया है। जिसके बाद शूटिंग का काम पूरा कर लिया गया है।

इस तरह के सीकेंस शूट हुए हैं

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में प्रोडक्शन से जुड़े स्रोत के हवाले से कहा गया कि शूटिंग शेड्यूल बिना किसी ब्रेक के पूरा हो चुका है। एक बार एडिट का काम लॉक हो जाए, उसके बाद कुछ दिनों का पैच वर्क होगा। पैच वर्क यानी फिल्म में क्या रखना है, क्या हटाना है, इस पर काम होगा। ये भी कहा गया कि राजकुमार संतोषी ने जो कुछ भी फिल्माया है, उसको लेकर वो बहुत एक्साइटेड हैं। कई ऐसे सीकेंस शूट किए गए हैं, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिलेगी।

एक अपडेट ये भी है कि इसमें एक ट्रेन सीकेंस भी है। ये अब तक का एक बेहद शानदार सीकेंस होने वाला, जोकि बंटवारे पर फिल्माया गया है। ये सीकेंस स्टोरीटेलिंग का एक नया आयाम सेट करेगा। बहरहाल, राज कुमार संतोषी हिन्दी सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टरों में से एक हैं। उन्होंने 'अंदाज अपना अपना', 'घायल' और 'घातक' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों हिन्दी सिनेमा को दी हैं। अब देखना होगा कि इस पिक्चर के जरिए वो क्या नया कमाल दिखाते हैं।

कब रिलीज हो रही है फिल्म ?

'लाहौर 1947' की रिलीज डेट पहले से ही अनाउंस है। ये पिक्चर अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को रिलीज में रिलीज की जाएगी। शबाना आजमी, अभिमन्यु सिंह और 'मिर्जापुर' के गड्डू भैया फेम एक्टर अली फजल भी इस पिक्चर में दिखने वाले हैं।